



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022024-251956
CG-DL-E-09022024-251956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2024/माघ 19, 1945

No. 546]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2024/MAGHA 19, 1945

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2024

का.आ. 574(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (इसके उपरांत उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 तथा धारा 25 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 22 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 4637 (ई) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii), दिनांक 22 दिसंबर, 2020 में प्रकाशित इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हैं जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार यह मत रखते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है और ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होना**— (1) इस आदेश को इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) इस आदेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **अनुप्रयोग**— यह आदेश अनुसूची-1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट इस्पात और इस्पात उत्पादों और अनुसूची-2 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सामग्रियों पर लागू होगा लेकिन यह स्वदेश में विनिर्मित ऐसे इस्पात और इस्पात उत्पादों पर लागू नहीं होगा, जो निर्यात के लिए हैं और जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी अन्य विनिर्देशन के अनुरूप हैं।

3. मानकों की अनुरूपता और अनिवार्य अपेक्षाएं— (1) अनुसूची-1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद उक्त अनुसूची-1 के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट तिथियों से उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होगा।

(2) अनुसूची-1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद के मामले में प्रत्येक कंसाइनमेंट के साथ भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित विनिर्माता द्वारा जारी मानक चिन्ह युक्त जांच प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(3) क्रम सं. 1 पर अनुसूची 2 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ और सामग्रियाँ भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम 2018 की अनुसूची-II की योजना-IV के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से अनुरूपता प्रमाणपत्र के तहत उक्त अनुसूची के कॉलम(3) में विनिर्दिष्ट संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगी।

(4) क्रम सं 2 पर अनुसूची 2 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सामग्रियों को अनुसूची 1 के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट, इनपुट सामग्री के रूप में स्टेनलेस स्टील से बनाया जाएगा जो अनुसूची 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप होगा और उस पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह होगा और निम्न की अनुपालना करेगा:-

(क) प्रत्येक कंसाइनमेंट के साथ क्रम सं.2 पर अनुसूची 2 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सामग्रियों के जांच प्रमाण पत्र होगा; और

(ख) प्रत्येक कंसाइनमेंट के साथ इनपुट सामग्री पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता द्वारा जारी मानक चिन्ह युक्त जांच प्रमाण-पत्र होगा।

(5) क्रम सं. 3, 4, 5, 6 एवं 7 पर अनुसूची 2 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सामग्रियों को अनुसूची 1 के कॉलम (3) में क्रम संख्या 108 और 109 के समक्ष यथाविनिर्दिष्ट, इनपुट सामग्री के रूप में टिन प्लेट और टिन मुक्त स्टील से बनाया जाएगा जो अनुसूची 1 के संबंधित कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप होगा, उस पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह होगा और इसके साथ इनपुट सामग्री का जांच प्रमाण-पत्र होगा।

4. मानक चिन्ह का अनिवार्य उपयोग— अनुसूची 1 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक इस्पात और इस्पात उत्पाद पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची- II की योजना-I के अनुसार ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिन्ह होना चाहिए।

(2) विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले निम्न स्तरीय अथवा दोषपूर्ण इस्पात एवं इस्पात उत्पादों का स्क्रेप के रूप में इस प्रकार निपटान किया जाएगा जिससे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

5. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी - भारतीय मानक ब्यूरो इस आदेश में विनिर्दिष्ट इस्पात और इस्पात उत्पादों, वस्तु एवं सामग्रियों के संबंध में प्रमाणन एवं प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

6. उल्लंघन के लिए सजा-जो भी व्यक्ति इस आदेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, उसे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 29 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा।

7. भारतीय मानकों में संशोधन अथवा सुधार प्रवृत्त होने की तिथि- यदि अनुसूची 1 के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट किसी भी भारतीय मानक में ब्यूरो द्वारा कोई संशोधन अथवा सुधार किया जाता है, तो उस पर यह आदेश ब्यूरो द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की गई तिथि से प्रभावी होगा।

अनुसूची-1

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	आईएस 1785 (भाग-1) : 1983	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन हार्ड-ड्रॉन इस्पात का तार: भाग 1 कोल्ड – ड्रॉन स्ट्रेस रिलिब्ड तार के लिए विनिर्देशन	72171010	72179091	72179099	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
2.	आईएस 1785 (भाग-2) : 1983	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए प्लेन हार्ड-ड्रॉन इस्पात का तार; भाग 2 ड्रॉन तार के रूप में	72171010	72179091	72179099	तत्काल प्रभाव से
3.	आईएस 6003 : 2010	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए इन्डेंटिड तार - विनिर्देशन	72171010	72179091	72179099	तत्काल प्रभाव से
4.	आईएस 6006 : 2014	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटिड स्ट्रेस रिलिब्ड स्ट्रेड - विनिर्देशन	73121030			तत्काल प्रभाव से
5.	आईएस 13620 : 1993	फ्यूजन बॉन्डिड इपोक्सी कोटिड रिइनफोर्सिंग बार्स-विनिर्देशन	72142090	72159090		तत्काल प्रभाव से
6.	आईएस 14268 : 2022	प्रि-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए अनकोटिड स्ट्रेस रिलिब्ड लो रिलेक्सेशन की सात (प्लाई) वायर स्ट्रेड के लिए विनिर्देशन	73121030			तत्काल प्रभाव से
7.	आईएस 277 : 2018	गेलवेनाईज्ड स्टील शीट्स (प्लेन एवं करुगेटेड)- विनिर्देशन	72104100 72104900	72123010 72123090		तत्काल प्रभाव से
8.	आईएस 2002 : 2009	मध्यवर्ती और उच्चताप सेवा जिसके अंतर्गत बॉयलर भी है, के लिए दाब पात्र के लिए स्टील प्लेट	72085110 72085120 72085210	72085220 72111300 72111420	72111490 72119011 72119090	तत्काल प्रभाव से
9.	आईएस 2041 : 2009	मध्यम और निम्न ताप पर प्रयुक्त दाब पात्रों के लिए इस्पात प्लेट - विनिर्देशन	72085110 72085120 72085210	72085220 72111300 72111420	72111490 72119090	तत्काल प्रभाव से
10.	आईएस 2830 : 2012	साधारण अवसंरचनात्मक प्रयोजनों के लिए इस्पात में पुनः रोलिंग के लिए कार्बन इस्पात ढलवा बिलेट इनगोट, बिलेट, ब्लूम और सिल्ली - विनिर्देशन	72061090	72071190 72071290	72071920 72071990	तत्काल प्रभाव से
11.	आईएस 1786 : 2008	8 एमएम से कम आकार के उच्च शक्ति वाले विरूपित इस्पात छड़ों और तारों को छोड़कर कंक्रीट रिइंफोर्समेंट के लिए उच्च शक्ति वाली विरूपित इस्पात छड़ें और तार - विनिर्देशन	72131090	72142090		तत्काल प्रभाव से
12.	आईएस 648 : 2022	पूर्णतया प्रक्रियागत प्रकार के कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड विद्युत इस्पात शीट तथा स्ट्रिप - विनिर्देशन	72251920 72251990	72261920 72261990		तत्काल प्रभाव से
13.	आईएस 3024 : 2015	ग्रेन ओरिएंटेड विद्युत इस्पात शीट तथा पट्टी	72251100	72261100		तत्काल प्रभाव से
14.	आईएस 15391 : 2003	अर्ध प्रसंस्कृत प्रकार के कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड विद्युत इस्पात शीट तथा स्ट्रिप- - विनिर्देशन	72251920 72251990	72261920 72261990	72091720 72091730 72091790	तत्काल प्रभाव से
15.	आईएस 1875 : 1992	कार्बन स्टील बिलेट्स, ब्लूमस, फोर्जिंग के लिए स्लैब्स व बार्स	72071120 72071190 72071220 72071290	72071990 72072010 72072090 72149190	72249040 72249091 72249099 72283029	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72071910 72071920	72149990 72159090	72286099	
16.	आईएस 3502 : 2009	स्टील चेकर्ड प्लेट्स	72081000 72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72111410	72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72119013	72119090 72254019 72259900 72269130 72269190 72269910 72269990	तत्काल प्रभाव से
17.	आईएस 2062 : 2011	हॉट रोल्ड मीडियम एंड हाई टेन्साइल स्ट्रक्चरल स्टील, सिर्फ 6 एमएम से कम व्यास एवं मोटाई वाले बार्स तथा रॉड्स को तथा (50 एमएम x 50 एमएम x 6 एमएम) से कम के स्ट्रक्चरल्स को छोड़कर	72082510 72082520 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890	72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72089000 72111300 72111410	72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72119012 72119090 72139190 72149190 72149990 72139990 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000 73011000 73012010 73012090	तत्काल प्रभाव से
18.	आईएस 432 (भाग 1) : 1982	माइल्ड स्टील तथा मीडियम टेन्साइल स्टील बार्स और कंक्रीट रिइन्फोर्समेंट के लिए हार्ड-ड्रॉन स्टील वायर का विनिर्देशन: भाग 1 माइल्ड स्टील तथा मीडियम टेन्साइल स्टील बार्स	72139190 72139990 72149190	72149990 72159090 72279090	72283019 72283029 72286099	तत्काल प्रभाव से
19.	आईएस 432 (भाग 2) : 1982	माइल्ड स्टील तथा मीडियम टेन्साइल स्टील बार्स और कंक्रीट रिइन्फोर्समेंट के लिए हार्ड-ड्रॉन स्टील वायर का विनिर्देशन: भाग 2 हार्ड ड्रॉन स्टील वायर	72171010 72171020 72171030 72179091	72179099 72299031 72299033	72299040 72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
20.	आईएस 513 (भाग 1) : 2016	कोल्ड रिड्यूस्ड कार्बन स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप भाग 1 कोल्ड फार्मिंग एंड ड्रॉइंग के लिए	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890 72092510 72092520	72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092710 72092720 72092730 72092790 72092810 72092820 72092830 72092890 72099000 72112310 72112320 72112330	72112340 72112350 72112390 72112940 72112950 72112990 72119012 72119090 72255010 72255020 72259900 72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	तत्काल प्रभाव से
21.	आईएस 513 (भाग 2) : 2016	कोल्ड रिड्यूस्ड लो कार्बन स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप : भाग 2 हाई टेन्साइल एंड मल्टी फेज स्टील	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890 72092510	72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092710 72092720 72092730 72092790 72092810 72092820 72092830 72092890 72099000 72112310 72112320	72112330 72112340 72112350 72112390 72112940 72112950 72112990 72119090 72255010 72255020 72259900 72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	तत्काल प्रभाव से
22.	आईएस 1079 : 2017	हॉट रोलड कार्बन स्टील शीट, प्लेट एंड स्ट्रिप	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620	72083920 72083930 72083940 72083990 72084010 72084020 72084030	72111460 72111490 72111910 72111920 72111930 72111940 72111950	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72082630	72084040	72111960	
			72082640	72084090	72111990	
			72082690	72085210	72119090	
			72082710	72085220	72253010	
			72082720	72085230	72253090	
			72082730	72085240	72254011	
			72082740	72085290	72254012	
			72082790	72085310	72254013	
			72083610	72085320	72254019	
			72083620	72085330	72254020	
			72083630	72085340	72254030	
			72083640	72085390	72259900	
			72083690	72085410	72269110	
			72083710	72085420	72269120	
			72083720	72085430	72269130	
			72083730	72085440	72269190	
			72083740	72085490	72269910	
			72083790	72089000	72269920	
			72083810	72111300	72269930	
			72083820	72111410	72269940	
			72083830	72111420	72269951	
			72083840	72111430	72269952	
			72083890	72111440	72269953	
			72083910	72111450	72269960	
					72269990	
23.	आईएस 2879 : 1998	मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के लिए माइल्ड स्टील	72132010 72132090 72139110	72139190 72139910 72139990	72179092 72179099	तत्काल प्रभाव से
24.	आईएस 5872 : 1990	कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स (बॉक्स स्ट्रैपिंग्स)	72112350 72112390 72112950	72112990 72125090 72262030	72269210 72269930 72269952 72269990	तत्काल प्रभाव से
25.	आईएस 5986 : 2017	हॉट रोल्ड स्टील शीट, फॉर्मिंग तथा फ्लैगिंग के लिए प्लेट तथा स्ट्रिप	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710	72085140 72085190 72083920 72083930 72083940 72083990 72084010 72084020 72084030 72084040 72084090	72253090 72254013 72254019 72254020 72254030 72259900 72269110 72269120 72111490 72111910 72111920	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72082720	72085110	72111930	
			72082730	72085120	72111940	
			72082740	72085210	72111950	
			72082790	72085220	72111960	
			72083610	72085230	72111990	
			72083620	72085240	72119012	
			72083630	72085290	72119090	
			72083640	72085310	72253090	
			72083690	72085320	72254013	
			72083710	72085330	72254019	
			72083720	72085340	72254020	
			72083730	72085390	72254030	
			72083740	72085410	72259900	
			72083790	72085420	72269110	
			72083810	72085430	72269120	
			72083820	72085440	72269130	
			72083830	72085490	72269190	
			72083840	72089000	72269910	
			72083890	72111300	72269920	
			72083910	72111410	72269930	
			72084010	72111420	72269940	
			72084020	72111430	72269951	
			72084030	72111440	72269952	
			72084040	72111450	72269953	
			72084090	72269130	72269960	
			72085130	72111460	72269990	
26.	आईएस 6240 : 2008	लो प्रेशर लिक्विफायबल गैस सिलिंडर के विनिर्माण के लिए हॉट रोल्ड स्टील प्लेट (6 एमएम तक) शीट तथा स्ट्रिप	72082510	72083910	72111930	तत्काल प्रभाव से
			72082520	72083920	72111940	
			72082530	72083930	72111950	
			72082540	72083940	72111960	
			72082590	72083990	72111990	
			72082610	72085210	72119090	
			72082620	72085220	72253090	
			72082630	72085230	72254012	
			72082640	72085240	72254013	
			72082690	72085290	72254019	
			72082710	72085310	72254020	
			72082720	72085320	72254030	
			72082730	72085330	72259900	
			72082740	72085340	72269110	
			72082790	72085390	72269120	
			72083610	72085410	72269130	
			72083620	72085420	72269190	

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72083630	72085430	72269910	
			72083640	72085440	72269920	
			72083690	72085490	72269930	
			72083710	72089000	72269940	
			72083720	72111410	72269951	
			72083730	72111420	72269953	
			72083740	72111430	72269990	
			72083790	72111440		
			72083810	72111450		
			72083820	72111460		
			72083830	72111490		
			72083840	72111910		
			72083890	72111920		
27.	आईएस 7283 : 1992	इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए ब्राइट बार्स तथा मशीनीकृत हिस्सों के उत्पादन के लिए हॉट रॉलड बार्स	72131010	72149910	72281010	तत्काल प्रभाव से
			72131090	72149990	72281090	
			72132010	72155010	72282000	
			72132020	72155090	72283011	
			72132090	72159010	72283019	
			72139110	72159020	72283021	
			72139120	72159090	72283022	
			72139190	72271000	72283023	
			72139910	72272000	72283029	
			72139920	72279010	72284000	
			72139990	72279020	72285010	
			72141010	72279030	72285090	
			72141090	72279040	72286091	
			72143000	72279050	72286092	
			72149110	72279060	72286093	
			72149190	72279090	72286099	
28.	आईएस 7887 : 1992	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए माइलड स्टील वायर रॉड	72139190	72139990	72279090	तत्काल प्रभाव से
29.	आईएस 10748: 2004	वैलिड ब्लून्स और पाइपों के लिए हॉट रोलड स्टील स्ट्रिप	72082540	72085240	72253090	तत्काल प्रभाव से
			72082590	72085290	72259900	
			72082640	72085340	72269110	
			72082690	72085390	72269120	
			72082740	72085440	72269130	
			72082790	72085490	72269190	
			72083640	72089000	72269910	
			72083690	72111450	72269920	
			72083740	72111460	72269930	
			72083790	72111490	72269940	
			72083840	72111950	72269951	
			72083890	72111960	72269952	

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72083940 72083990	72111990 72119090	72269953 72269960 72269990	
30.	आईएस 11513 : 2017	कोल्ड रोलिंग उद्देश्य के लिए हॉट रोल्ड कार्बन स्टील स्ट्रिप	72082540 72082590 72082640 72082690 72082740 72082790 72083640 72083690 72083740 72083790 72083840 72083890 72083940	72083990 72089000 72111450 72111460 72111490 72111950 72111960 72111990 72119090 72253090 72259900 72269110	72269120 72269130 72269190 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269953 72269960 72269990	तत्काल प्रभाव से
31.	आईएस 15647: 2006	वेल्डिड ट्यूब्स और पाईपों के लिए हॉट रोल्ड स्टील नैरो विड् स्ट्रिप	72111300 72111450 72111460	72111490 72111950 72111960	72111990 72119090	तत्काल प्रभाव से
32.	आईएस 7904 : 2018	हाई कार्बन स्टील वायर रॉड्स - विनिर्देशन	72139190	72139990		तत्काल प्रभाव से
33.	आईएस 14246: 2013	लगातार पहले से पेंट किए गए गेल्बनाइज्ड स्टील शीट्स और कॉइल्स	72107000	72109090 72124000	72259900 72259200	तत्काल प्रभाव से
34.	आईएस 15965: 2012	पहले से पेंट किए गए अल्युमिनियम जिंक अलॉय मेटालिक कोटिड स्टील स्ट्रिप और शीट (प्लेन)	72107000 72109090	72124000	72259200 72259900	तत्काल प्रभाव से
35.	आईएस 280: 2006	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए माइल्ड स्टील वायर	72171010 72171020 72171030	72172010 72172020 72172030	72173010 72173020 72173030	तत्काल प्रभाव से
36.	आईएस 1835 : 1976	रस्सियों के लिए राउण्ड स्टील वायर	72171010 72171020 72171030	72172010 72172020 72172030	72179091 72179099 72299033 72299040	तत्काल प्रभाव से
37.	आईएस 3975: 1999	केबलों को आर्मर करने हेतु लो कार्बन गेल्बनाइज्ड स्टील वायर्स फॉर्मर्ड वायर्स और टेप्स	72172010 72172020 72172030 72179011	72179012 72179013 72179019 72179091	72179092 72179093 72179099	तत्काल प्रभाव से
38.	आईएस 4368: 1967	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों हेतु फॉर्जिंग के लिए अलॉय स्टील बिलेट्स, ब्लूमस और स्लैब्स।	72249091	72249099		तत्काल प्रभाव से
39.	आईएस 4454 (भाग 1): 2001	मेकेनिकल स्प्रिंग्स हेतु स्टील वायर्स, भाग 1 कोल्ड ड्राउन अनअलॉयड स्टील	72171010 72171020	72172010 72172020	72173020 72173030	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		वायर।	72171030	72172030 72173010	72179091 72179099	
40.	आईएस 4454 (भाग 2): 2001	मेकेनिकल स्प्रिंग्स हेतु स्टील वायर भाग 2: ऑयल हार्डेनड और टेम्पर्ड स्टील वायर।	72171010 72171020 72171030 72179091	72179099 72292000 72299032	72299033 72299034 72299040 72299090	तत्काल प्रभाव से
41.	आईएस 4824: 2022	टायरों हेतु बीड वायर।	72171010 72171020	72171030 72173010 72173020	72173030 72179091 72179099	तत्काल प्रभाव से
42.	आईएस 11169 (भाग 1): 2022	कोल्ड शीर्ष/कोल्ड निष्कासन अनुप्रयोगों हेतु स्टील्स भाग-1 राउट कार्बन और लो अलॉय स्टील्स	72132020 72139120 72139920 72141090 72149110 72149990	72171010 72171020 72171030 72279040 72279090	72283029 72284000 72286012 72286099 72299040 72299090	तत्काल प्रभाव से
43.	आईएस 11587 : 1986	अवसंरचनात्मक मौसम प्रतिरोधक स्टील।	72081000 72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820	72085410 72085420 72085430 72085440 72085490 72089000 72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890 72092510 72092520 72092530 72092590 72092620 72092630	72122090 72123010 72123090 72124000 72125010 72125020 72125090 72126000 72141090 72149190 72149990 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000 72166100 72166900 72169100 72169910 72169920 72169930 72169940 72169990 72255010	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72083830	72092690	72255020	
			72083840	72092710	72255030	
			72083890	72092720	72253090	
			72083910	72092730	72254019	
			72083920	72092790	72254020	
			72083930	72092810	72254030	
			72083940	72092820	72255010	
			72083990	72092830	72255020	
			72084010	72092890	72255030	
			72084020	72099000	72269110	
			72084030	72111300	72269120	
			72084040	72111410	72269130	
			72084090	72111420	72269190	
			72085110	72111430	72269210	
			72085120	72111440	72269220	
			72085130	72111450	72269230	
			72085140	72111460	72269910	
			72085190	72111490	72269920	
			72085210	72111910	72269930	
			72085220	72111920	72269940	
			72085230	72111930	72269951	
			72085240	72111940	72269952	
			72085290	72111950	72269990	
			72085310	72111960	72279090	
			72085320	72111990	72287011	
			72085330	72121010	72287012	
			72085340	72121090	72287021	
			72085390	72122010	72287022	
44.	आईएस 15103 : 2002	अग्नि प्रतिरोधक स्टील - विनिर्देशन।	72081000	72085410	72122090	तत्काल प्रभाव से
			72082510	72085420	72123010	
			72082520	72085430	72123090	
			72082530	72085440	72124000	
			72082540	72085490	72125010	
			72082590	72089000	72125020	
			72082610	72091510	72125090	
			72082620	72091520	72126000	
			72082630	72091530	72141090	
			72082640	72091590	72149190	
			72082690	72091610	72149990	
			72082710	72091620	72161000	
			72082720	72091630	72162100	
			72082730	72091690	72162200	
			72082740	72091710	72163100	

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72082790	72091720	72163200	
			72083610	72091730	72163300	
			72083620	72091790	72164000	
			72083630	72091810	72165000	
			72083640	72091820	72166100	
			72083690	72091830	72166900	
			72083710	72091890	72169100	
			72083720	72092510	72169910	
			72083730	72092520	72169920	
			72083740	72092530	72169930	
			72083790	72092590	72169940	
			72083810	72092620	72169990	
			72083820	72092630	72255010	
			72083830	72092690	72255020	
			72083840	72092710	72255030	
			72083890	72092720	72253090	
			72083910	72092730	72254019	
			72083920	72092790	72254020	
			72083930	72092810	72254030	
			72083940	72092820	72255010	
			72083990	72092830	72255020	
			72084010	72092890	72255030	
			72084020	72099000	72269110	
			72084030	72111300	72269120	
			72084040	72111410	72269130	
			72084090	72111420	72269190	
			72085110	72111430	72269210	
			72085120	72111440	72269220	
			72085130	72111450	72269230	
			72085140	72111460	72269910	
			72085190	72111490	72269920	
			72085210	72111910	72269930	
			72085220	72111920	72269940	
			72085230	72111930	72269951	
			72085240	72111940	72269952	
			72085290	72111950	72269990	
			72085310	72111960	72279090	
			72085320	72111990	72287011	
			72085330	72121010	72287012	
			72085340	72121090	72287021	
			72085390	72122010	72287022	
45.	आईएस 15914 : 2011	वेल्डिड गैस सिलेण्डर के विनिर्माण हेतु उच्च टेनसाइल तीव्रता वाले फ्लैट	72082510 72082520	72085130 72085140	72091790 72091810	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		रोल्ड स्टील प्लेट (6 एमएम तक), शीट और स्ट्रिप।	72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890 72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72085110 72085120	72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72085410 72085420 72085430 72085440 72085490 72091820 72091830 72091890 72092510 72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092710 72092720 72092730 72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730	72092790 72092810 72092820 72092830 72092890 72099000 72111300 72111410 72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72111910 72111920 72111930 72111940 72111950 72111960 72111990 72253090 72254019 72254020 72254030 72255010 72255020 72255030 72269110 72269120 72269130 72269190 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269990	
46.	आईएस 15961 : 2012	हॉट डिप अल्यूमिनियम – जिंक अलॉय मेटैलिक कोटिड स्टील स्ट्रिप और शीट (प्लेन)।	72106100 72106900	72123090 72125090	72259200 72259900	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
47.	आईएस 15962 : 2012	अधिक भूकंपीय प्रतिरोधक के साथ अवसंरचना के निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल स्टील।	72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72111300 72111410 72111420 72111430	72111440 72111450 72111460 72111490 72111910 72111920 72111930 72111940 72111950 72111960 72111990 72119090 72141090 72149190 72149990 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200	72163300 72164000 72165000 72166100 72166900 72169100 72169910 72169920 72169930 72169940 72169990 72255030 72259900 72269110 72269120 72269130 72269190 72287011 72287012 72287021 72287022	तत्काल प्रभाव से
48.	आईएस 6527: 1995	स्टेनलेस स्टील वायर रॉड	72210011 72210012 72210019 72210090 72221191 72221192	72221199 72221991 72221992 72221999 72222091 72222092	72222099 72223091 72223092 72223099	तत्काल प्रभाव से
49.	आईएस 6528 :1995	स्टेनलेस स्टील वायर	72230091	72230092	72230099	तत्काल प्रभाव से
50.	आईएस 6603 : 2001	स्टेनलेस स्टील बार्स और फ्लैट्स	72221111 72221112 72221119 72221191 72221192 72221199 72221911 72221912	72221919 72221991 72221992 72221999 72222011 72222012 72222019 72222091	72222092 72222099 72223011 72223012 72223019 72223091 72223092 72223099	तत्काल प्रभाव से
51.	आईएस 5522 : 2014	वर्तनों हेतु स्टेनलेस स्टील शीट्स और स्ट्रिप – विनिर्देशन	72191300 72191400 72192310 72192320 72192390 72192411	72192423 72192429 72192490 72193210 72193220 72193290	72193490 72193510 72193520 72193590 72199012 72199013	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72192412 72192413 72192419 72192421 72192422	72193310 72193320 72193390 72193410 72193420	72199090 72201290 72202090 72209090	
52.	आईएस 6911: 2017	स्टेनलेस स्टील प्लेट, शीट और स्ट्रिप – विनिर्देशन	72191111 72191112 72191190 72191200 72191300 72191400 72192111 72192112 72192121 72192122 72192131 72192132 72192141 72192142 72192190 72192211 72192212 72192219 72192291 72192292 72192299 72192310 72192320 72192390 72192411	72192412 72192413 72192419 72192421 72192422 72192423 72192429 72192490 72193111 72193112 72193121 72193122 72193190 72193210 72193220 72193290 72193310 72193320 72193390 72193410 72193420 72193490 72193510 72193520 72193590	72199011 72199012 72199013 72199090 72201110 72201121 72201122 72201129 72201190 72201210 72201221 72201222 72201229 72201290 72202010 72202021 72202022 72202029 72202090 72209010 72209021 72209022 72209029 72209090	तत्काल प्रभाव से
53.	आईएस 15997: 2012	बर्तनों और रसोई उपकरणों हेतु लो निकेल ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील शीट और स्ट्रिप – विनिर्देशन	72191300 72191400 72192320 72192390 72192421 72192422 72192423 72192429	72192490 72193220 72193290 72193320 72193390 72193420 72193490 72193520	72193590 72199012 72199013 72199090 72201290 72202090 72209090	तत्काल प्रभाव से
54.	आईएस 1110 : 1990	फैरोसिलिकन – विनिर्देशन	72022100	72022900		तत्काल प्रभाव से
55.	आईएस 4409 : 2023	फैरोनिकल हेतु विनिर्देशन	72026000			23 जनवरी, 2024

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
56.	आईएस 1029 : 1970	हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रिप (बेलिंग) हेतु विनिर्देशन	72111450 72111460 72111490	72111950 72111960 72111990	72269951 72269990	तत्काल प्रभाव से
57.	आईएस 2385 : 1977	कोल्ड-रिड्यूज्ड टिन प्लेट और कोल्ड-रिड्यूज्ड ब्लैक प्लेट के लिए क्वायल के रूप में हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील शीट और स्ट्रिप हेतु विनिर्देशन	72082530 72082540 72082590 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790	72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790	72083830 72083840 72083890 72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72253090 72259900	तत्काल प्रभाव से
58.	आईएस 3039 : 1988	जहाजों के ढाँचों के निर्माण के लिए स्ट्रक्चरल स्टील हेतु विनिर्देशन	72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290	72089000 72111300 72111410 72111420 72111490 72111910 72111920 72111990 72119013 72119090 72141090 72149110 72149190 72149990 72155090 72159090	72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000 72166100 72166900 72169100 72169910 72169920 72169930 72169940 72169990	तत्काल प्रभाव से
59.	आईएस 9550: 2001	ब्राइट स्टील बार्स - विनिर्देशन	72149110 72149190 72151000 72155010 72155090 72210011 72210012 72210019 72210090 72211111 72211112 72211119 72211191	72211919 72211991 72211992 72211999 72222011 72222012 72222019 72222091 72222092 72222099 72223011 72223012 72223019	72281010 72281090 72283011 72283019 72283021 72283022 72283023 72283024 72283029 72286011 72286012 72286091 72286092	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72211192 72211199 72211911 72211912	72223091 72223092 72223099	72286093 72286094 72286099	
60.	आईएस 3748 : 2022	टूल स्टील्स- विनिर्देशन	72141090 72149190 72149990 72155090 72159090 72241000 72249010 72249030 72249040 72249091 72249099 72253090 72255010 72255020 72255030	72259900 72262011 72262012 72262021 72262022 72262030 72271000 72272000 72279090 72281010 72281090 72283011 72283019 72283024 72283029	72284000 72285090 72286011 72286012 72286094 72286099 72287011 72287012 72287021 72287022 72288010 72288020 72288090	तत्काल प्रभाव से
61.	आईएस 5517 : 1993	हार्डनिंग और टेम्परिंग हेतु स्टील – विनिर्देशन	72084090 72085190 72085290 72089000	72149190 72149990 72299034	72299090 73261910 73261990	तत्काल प्रभाव से
62	आईएस 7494 : 1981	इंजनों के आंतरिक प्रज्वलन के लिए वाल्वों की स्टील हेतु विनिर्देशन	72141090 72149110 72149190 72149990 72159090	72279090 72281090 72283019 72283029 72284000	72285010 72285090 72286012 72286099	तत्काल प्रभाव से
63.	आईएस 12146 : 1987	प्रेशर वेसल्स के लिए कार्बन मँगनीज, स्टील फोर्जिंग हेतु विनिर्देशन	72084090 72085190	72085290 72089000	72149190 72149990	तत्काल प्रभाव से
64.	आईएस 16585 : 2016	चुंबकीय सामग्रियाँ – वैयक्तिक सामग्री – अर्ध-प्रसंस्कृत अवस्था में डिलीवर की गई लोहांश आधारित एमोरफस स्ट्रिप हेतु विनिर्देशन	72251910 72251920	72251990 72261990	72269930 72269990	तत्काल प्रभाव से
65.	आईएस 2831 : 2012	स्ट्रक्चरल स्टील (सामान्य गुणवत्ता वाले) में रि-रोलिंग हेतु कार्बन स्टील कॉस्ट बिलेट, इनगोट्स, बिलेट्स, ब्लूम और स्लैब – विनिर्देशन	72061090 72071190 72071290	72071910 72071920	72071990 72072090	तत्काल प्रभाव से
66.	आईएस 1148: 2009	अवसंरचनात्मक उद्देश्यों के लिए स्टील रिबेट बार्स (मध्यम और उच्च टेनसाइल)	72149990	72286099		तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
67.	आईएस 1673: 1984	माइल्ड स्टील वायर, कोल्ड हेडिंग गुणवत्ता के लिए विनिर्देशन	72179019	72179091	72179099	तत्काल प्रभाव से
68.	आईएस 1812: 1982	लकड़ी स्क्रू के विनिर्माण के लिए कार्बन स्टील वायर	72171010 72171020 72171030 72172010	72172020 72172030 72179019 72179091	72179099 72299031 72299033 72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से
69.	आईएस 2507: 1975	स्प्रिंग्स हेतु कोल्ड रोलड स्टील स्ट्रिप के लिए विनिर्देशन	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890	72092510 72092520 72092530 72092820 72092830 72092890 72099000 72112310 72112320 72112330 72112340 72112350 72112390 72112910 72112920 72112930 72112940 72112950	72112960 72112990 72119090 72255010 72255020 72255030 72259900 72269210 72269220 72269230 72269910 72269920 72269930 72269940 72269952 72269953 72269990	तत्काल प्रभाव से
70.	आईएस 2255: 1977	मशीन स्क्रू के विनिर्माण के लिए माइल्ड स्टील वायर रॉड के लिए विनिर्देशन (कोल्ड हेडिंग प्रक्रिया के माध्यम से)	72132020	72139120	72139920	तत्काल प्रभाव से
71.	आईएस 3195: 1992	बल्यूट और हेलिकल स्प्रिंग्स (रेलवे रोलिंग स्टॉक के लिए) के विनिर्माण के लिए इस्पात – विनिर्देशन	72141010 72141090 72142010 72149190	72149910 72149990 72283019 72283022	72283029 72285090 72286092 72286099	तत्काल प्रभाव से
72.	आईएस 3431: 1982	ऑटोमोटिव सस्पेंशन के लिए बल्यूट, हेलिकल और लेमिनेटेड स्प्रिंग्स के विनिर्माण के लिए इस्पात हेतु विनिर्देशन	72141010 72141090 72142010 72149190 72149910	72149990 72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099 72282000	तत्काल प्रभाव से
73.	आईएस 3885- भाग-1 : 1992	लेमिनेटेड स्प्रिंग्स (रेलवे रोलिंग स्टॉक) भाग 1 फ्लैट सेक्शन के निर्माण के लिए इस्पात – विनिर्देशन	72149190 72149910 72149990	72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
74.	आईएस 3885 - भाग-2: 1992	लेमिनेटेड स्प्रिंग्स (रेलवे रोलिंग स्टोक) के विनिर्माण के लिए भाग 2 : रिब और ग्रूव सेक्शन इस्पात – विनिर्देशन	72142010 72149190 72149910 72149990	72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099	तत्काल प्रभाव से
75.	आईएस 4223: 1975	अम्ब्रेला रिब्स हेतु इस्पात वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72172010	72179091	72179099	तत्काल प्रभाव से
76.	आईएस 4224: 1972	स्टेपल, पिन और क्लिप हेतु स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171020 72171030 72179099	72299033 72299052	72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से
77.	आईएस 4397 : 1999	बॉल और रोलर धारित केज/रेटेनर्स के लिए कोल्ड रोलड कार्बन स्टील स्ट्रिप्स – विनिर्देशन	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 7209179072 091810 72091820 72091830	72091890 72092510 72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092710 72092720 72092730 72092790 72092810 72092820 72092830	72092890 72099000 72112310 72112320 72112330 72112340 72112350 72112390 72112910 72112920 72112930 72112940 72112950 72112960 72112990 72119090	तत्काल प्रभाव से
78.	आईएस 4398 : 1994	बॉल और रोलर्स और बियरिंग रेसर्स के विनिर्माण के लिए कार्बन- क्रोमियम स्टील – विनिर्देशन	72249091 72249099 72279030 72279090	72283019 72283029 72284000 72285090	72286012 72286099 72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से
79.	आईएस 6902: 1973	स्पोक्स हेतु स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72172010 72179019 72179091	72179099 72299033 72299034	72299040 72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से
80.	आईएस 6967: 1973	विद्युत से वेल्ड किए राउंड लिंक चेन हेतु इस्पात के लिए विनिर्देशन	72071120 72071190 72071220 72071290 72071920	72071990 72072010 72072090 72141090 72142090 72149190	72149990 72249091 72249099 72284000 72285090 72286099	तत्काल प्रभाव से
81.	आईएस 7226: 1974	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए कोल्ड रोलड मध्यम, उच्च कार्बन और लो अलॉय स्टील स्ट्रिप के लिए विनिर्देशन	72112310 72112320 72112330	72112910 72112920 72112930	72112960 72112390 72269210	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72112340 72112350 72112390	72112940 72112950	72269930 72269952 72269990	
82.	आईएस 7557: 1982	कोल्ड फोर्ज्ड रिबेट के विनिर्माण हेतु स्टील वायर (20एमएम तक) के लिए विनिर्देशन	72139120 72139190 72139920 72139990 72149990 72171010	72179019 72179091 72179099 72279040 72279090 72284000	72285090 72286099 72299033 72299040 72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से
83.	आईएस 8052 : 2006	सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्प्रिंग्स, रिबेट्स और स्कू के उत्पादन हेतु स्टील इंगोट, बिलेट्स और ब्लूमस	72071120 72071190 72071220 72071290	72071920 72071990 72072010 72072090	72241000 72249091 72249099	तत्काल प्रभाव से
84.	आईएस 8951: 2001	उच्च कार्बन स्टील वायर रॉड के लिए स्टील कास्ट बिलेट, इंगोट्स, बिलेट्स और ब्लूमस - विनिर्देशन	72061020 72061090	72241000 72249091 72249099		तत्काल प्रभाव से
85.	आईएस 8952: 1995	सामान्य इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए माइल्ड स्टील वायर रॉड के उत्पादन हेतु स्टील इंगोट्स, ब्लूमस और बिलेट्स - विनिर्देशन	72071190 72071290	72071920 72071990	72072090	तत्काल प्रभाव से
86.	आईएस 9476 : 1980	कार्बन स्टील रेजर ब्लेड्स के लिए कोल्ड रोलड स्टील स्ट्रिप्स हेतु विनिर्देशन	72119090 72269210	72269930 72269952	72269990	तत्काल प्रभाव से
87.	आईएस 9962 : 1981	सूई हेतु स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72171020	72171030 72179019	72179091 72179099	तत्काल प्रभाव से
88.	आईएस 14331: 1995	उच्च तापमान बोल्टिंग अनुप्रयोगों हेतु स्टील के लिए विनिर्देशन	72282000 72283019	72283029	72284000	तत्काल प्रभाव से
89.	आईएस 14650: 1999	कार्बन स्टील कास्ट बिलेट, इंगोट्स, बिलेट्स, ब्लूमस - और स्लैब री-रोलिंग उद्देश्यों के लिए- विनिर्देशन	72061010 72061020 72061090 72069099 72071110 72071120 72071130 72071190	72071210 72071220 72071230 72071290 72071910 72071920 72071990 72072010	72072020 72072030 72072090 72241000 72249010 72249020 72249030 72249091 72249099	तत्काल प्रभाव से
90.	आईएस 4882 : 1979	बेयरिंग उद्योग में उपयोग हेतु रिबेट के लिए निम्न कार्बन स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72171020 72171030 72172010 72172020	72173010 72173020 72173030 72179019 72179091	72299031 72299033 72299040 72299052 72299059	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72172030	72179099	72299090	
91.	आईएस 2090: 1983	प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट में इस्तेमाल उच्च टेंसाइल स्टील बार्स के लिए विनिर्देशन	72149990	72283029	72286099	तत्काल प्रभाव से
92.	आईएस 6529: 1996	फोर्जिंग के लिए स्टेनलेस स्टील ब्लूमस विलेट्स और स्लैब	72181000 72189100	72189910	72189990	तत्काल प्रभाव से
93.	आईएस 9294 : 1979	रेजर ब्लेड के लिए कोल्ड-रोल्ड स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स	72202021 72202022 72202029	72202090 72209021 72209022	72209029 72209090	तत्काल प्रभाव से
94.	आईएस 10631 : 1983	इलैक्ट्रोड कोर वायर वेल्डिंग के लिए स्टेनलेस स्टील	72181000 72189100 72189910 72189990 72210090	72222011 72222012 72222019 72222091 72222092	72222099 72230010 72230091 72230092 72230099	तत्काल प्रभाव से
95.	आईएस 10632 (भाग 2): 1983	विद्युत अनुप्रयोग के लिए नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील हेतु विनिर्देशन : भाग - 2 बाइडिंग वायर हेतु विशेष आवश्यकताएं	72230091	72230092	72230099	तत्काल प्रभाव से
96.	आईएस 10632 (भाग 3): 1983	विद्युत अनुप्रयोग के लिए नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील हेतु विनिर्देशन भाग 3 शीट्स, स्ट्रिप्स एवं प्लेट्स के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं	72191111 72191112 72191190 72191200 72191300 72191400 72192111 72192112 72192121 72192122 72192131 72192132 72192141 72192142 72192190 72192211 72192212 72192219 72192291 72192292 72192299 72192310 72192320 72192390 72192411	72192412 72192413 72192419 72192421 72192422 72192423 72192429 72192490 72193111 72193112 72193121 72193122 72193190 72193210 72193220 72193290 72193310 72193320 72193390 72193410 72193420 72193490 72193510 72193520 72193590	72199011 72199012 72199013 72199090 72201110 72201121 72201122 72201129 72201190 72201210 72201221 72201222 72201229 72201290 72202010 72202021 72202022 72202029 72202090 72209010 72209021 72209022 72209029 72209090	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
97.	आईएस 11169 (भाग 2) : 1989	कोल्ड हेडिंग कोल्ड एक्सट्रूशन अनुप्रयोगों के लिए विनिर्देशन भाग 2 स्टेनलेस स्टील	72222011 72222012 72222019 72222091 72222092 72222099	72223011 72223012 72223019 72223091 72223092 72223099	72224010 72224020 72223091 72223092 72223099	तत्काल प्रभाव से
98.	आईएस 5651: 1987	न्यूमैटिक टूल्स के लिए स्टील	72241000 72249010 72249020 72249030	72249040 72249091 72249099 72283024	72286094 72288010 72288020 72288090	तत्काल प्रभाव से
99.	आईएस 9516 : 1980	तापरोधी इस्पात	72089000 72099000 72109090 72119090	72149990 72192111 72192112 72192121	72192122 72192211 72192212 72192219	तत्काल प्रभाव से
100.	आईएस 11952 : 1986	पिस्टन पिन (गजन पिन्स) के लिए इस्पात	72286012			तत्काल प्रभाव से
101.	आईएस 12045 : 1987	विद्युत रोधी मेटालिक हीटिंग एलिमेन्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले अलॉय	72201190 72201290 72202090 72209090	72210090 72217222 72230091	72230092 72230099 72299060	तत्काल प्रभाव से
102.	आईएस 14652: 1999	18 प्रतिशत निकेल मेरेजिंग स्टील बार्स और रॉड्स	72210012 72210019 72210090 72221112 72221119 72221192	72221199 72221912 72221919 72221992 72221999 72222012	72222019 72222092 72222099 72223012 72223092 72279090	तत्काल प्रभाव से
103.	आईएस 1566: 1982	कंक्रीट रीइन्फॉर्समेंट के लिए हार्ड ड्राउन स्टील वायर फैब्रिक के लिए विनिर्देशन	72171010	72179091	72179099	तत्काल प्रभाव से
104.	आईएस 11946 : 1987	सॉफ्ट मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप	72091530 72091630 72091730 72091830 72092530 72092630 72092730 72092830	72099000 72112350 72112950 72255010 72255020 72255030 72259900 72269210	72269220 72269230 72269910 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	तत्काल प्रभाव से
105.	आईएस 11947 : 1987	सॉफ्ट, मैग्नेटिक आयरन रॉड्स, बार्स, फ्लैट्स और सेक्शन	72155090 72159090 72161000	72164000 72165000 72166100	72285090 72286012 72286099	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72162100 72162200 72163100 72163200 72163300	72166900 72169100 72169930 72169940 72169990	72287011 72287012 72287021 72287022 72288090	
106.	आईएस 963: 1958	विमान प्रयोजन के लिए क्रोम मोलिब्डेनम स्टील बार्स और रॉड्स	72141090 72149110 72149190 72149990 72155010 72155090 72159090 72221111 72221119 72221191	72221199 72221911 72221919 72221991 72221999 72222011 72222019 72222091 72222099 72223011	72223019 72223091 72223099 72283019 72283029 72284000 72285090 72286012 72286099	तत्काल प्रभाव से
107.	आईएस 4454 (भाग 4) : 2001	मेकेनिकल स्प्रिंग्स - भाग 4 के लिए स्टील वायर : स्टेनलेस स्टील वायर	72230091	72230092	72230099	तत्काल प्रभाव से
108.	आईएस 1993:2018	कोल्ड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट	72101110 72101190 72101210	72101290 72107000 72109010	72109090 72121010 72121090 72124000	तत्काल प्रभाव से
109.	आईएस 12591:2018	कोल्ड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम/क्रोमियम ऑक्साइड-कोटेड स्टील	72105000	72125090		तत्काल प्रभाव से
110.	आईएस 412:1975	सामान्य उद्देश्यों हेतु विस्तारित मेटल शीट के लिए विनिर्देशन	72083830 72083930 72085330 72085340 72085390 72085430 72085440 72085490 72089000 72091520	72091530 72091590 72091620 72091630 72091690 72091720 72091730 72091790 72091820 72091830	72091890 72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092720 72092730 72092790 72099000	तत्काल प्रभाव से
111.	आईएस 2100: 1970	स्टील बिलेट्स, बार्स और बॉयलर्स के सेक्शन के लिए विनिर्देशन	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920 72071990 72072010	72249091 72249099 72141090 72142090 72119090 72149110 72149190 72149990	72283029 72284000 72285090 72286099 72287011 72287012 72287021 72287022	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72072090 72241000 72249040	72155010 72155090 72159090	72254011 72119011	
112.	आईएस 2589: 1975	अपहॉल्स्ट्री स्प्रिंग्स के लिए हार्ड हार्ड ड्रॉन स्टील वायर हेतु विनिर्देशन	72292000 72299011 72299012 72299013 72299014 72299015 72299016 72299031 72299032 72299033	72299034 72299040 72299051 72299052 72299053 72299054 72299059 72299070 72299090 72171010	72171020 72171030 72172010 72172020 72172030 72173010 72173020 72173030 72179099	तत्काल प्रभाव से
113.	आईएस 3298: 1981	शिप बिल्डिंग हेतु माइल्ड स्टील राइवेट के लिए विनिर्देशन	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920 72071990 72072010 72072090 72249099	72141090 72142090 72149110 72149190 72149990 72155010 72155090 72159090 72283019 72283029	72284000 72285090 72286099 72287011 72287012 72287021 72287022 73182300 73182990	तत्काल प्रभाव से
114.	आईएस 4072: 1975	स्प्रिंग वॉशर्स के लिए इस्पात हेतु विनिर्देशन	72141010 72142010 72149910 72149990 72253010	72269953 72279020 72283022 72283029 72286092	72286099 72288090 72299032 72299040	तत्काल प्रभाव से
115.	आईएस 8510 (भाग II) : 1977	आर्मेचर एंड रोटर्स की बैंडिंग की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु विनिर्देशन पार्ट-II। मैग्नेटिंग बैंडिंग वायर्स हेतु विशिष्ट आवश्यकताएं	72173010 72173020 72173030 72179099 72299011			तत्काल प्रभाव से
116.	आईएस 8510 (भाग III) : 1977	आर्मेचर एंड रोटर्स की बैंडिंग की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु विनिर्देशन पार्ट-III। नॉन मैग्नेटिंग बैंडिंग वायर्स हेतु विशिष्ट आवश्यकताएं	72173010 72173020 72173030 72179099 72299011			तत्काल प्रभाव से
117.	आईएस 8563: 1977	स्प्लीट पिन्स के विनिर्माण के लिए हाफ राउंड माइल्ड स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72179011 72299014 72299051 72299090			तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
118.	आईएस 8564: 1977	स्पोकस के लिए निप्पल हेतु स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72171020 72171030 72179019 72179091	72179099 72292000 72299031 72299032 72299033	72299034 72299040 72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से
119.	आईएस 8565: 1977	हील्ड वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72171020 72171030 72179019 72179091 72179099	72292000 72299031 72299032 72299033 72299034	72299040 72299051 72299052 72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से
120.	आईएस 8566: 1977	रीड्स हेतु स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72171010 72171020 72171030 72179019 72179091	72179099 72292000 72299031 72299032 72299033	72299034 72299040 72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से
121.	आईएस 8917: 1978	गैल्वनीनीकृत पॉट्स हेतु इस्पात प्लेट्स के लिए विनिर्देशन	72082510 72082610 72082620 72082710 72082720 72083610 72084020 72085110 72085120 72085210 72085220 72083620 72083710 72083720 72083810 72083820	72083910 72083920 72084010 72085310 72085320 72085410 72085420 72089000 72091510 72091610 72091790 72091710 72091810 72091890 72092510 72092590	72092610 72092690 72092710 72092790 72092810 72099000 72111300 72111420 72111490 72111920 72111990 72112320 72112390 72112920 72112990 72119090	तत्काल प्रभाव से
122.	आईएस 9442: 1980	एग्रीकल्चरल टिलेज डिस्क के विनिर्माण हेतु हॉट रोल्ड स्टील प्लेट्स, शीट्स और स्ट्रिप्स के लिए विनिर्देशन	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710	72084040 72084090 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240	72192142 72192190 72192211 72192212 72192219 72192291 72192292 72192299 72192411 72192412 72192413	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72082720	72085290	72192419	
			72082730	72085310	72192421	
			72082740	72085320	72192422	
			72082790	72085330	72192423	
			72083610	72085340	72192429	
			72083620	72085390	72193111	
			72083630	72085410	72193112	
			72083640	72085420	72193121	
			72083690	72085430	72193122	
			72083710	72085440	72193190	
			72083720	72085490	72193210	
			72083730	72089000	72193220	
			72083740	72111300	72193290	
			72083790	72111420	72193310	
			72083810	72111440	72193320	
			72083820	72111450	72193390	
			72083830	72111490	72193410	
			72083840	72191111	72193420	
			72083890	72191112	72193490	
			72083910	72191190	72193510	
			72083920	72192111	72193520	
			72083930	72192112	72193590	
			72083940	72192121	72199011	
			72083990	72192122	72129012	
			72084010	72192131	72129013	
			72084020	72192132	72129090	
			72804030	72192141		
123.	आईएस 9485: 1980	पोर्सलीन एनेमलिंग के लिए कोल्ड रिड्यूस्ड एवं हॉट रोल्ड कार्बन स्टील शीट के लिए विनिर्देशन	72082530	72085190	72092520	तत्काल प्रभाव से
			72082590	72085230	72092590	
			72082630	72085290	72092620	
			72082690	72085330	72092690	
			72082730	72099000	72092720	
			72082790	72085390	72092790	
			72083630	72085430	72092820	
			72083690	72085490	72092890	
			72083730	72089000	72111440	
			72083790	72091520	72111490	
			72083830	72091590	72111940	
			72083890	72091620	72111990	
			72083930	72091690	72112340	
			72083990	72091720	72112390	
			72084030	72091790	72112940	
			72084090	72091820	72112990	

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72085130	72091890	72119090	
124.	आईएस 10794: 1984	कॉपर पिन्स हेतु माइल्ड स्टील वायर के लिए विनिर्देशन	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890 72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72084010 72084020 72084030 72084040	72084090 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72085410 72085420 72085430 72085440 72085490 72089000 72111300 72111420 72111440 72111450 72111490 72191111 72191112 72191190 72192111 72192112 72192121 72192122 72192131 72192132 72192141 72192142 72192190	72192211 72192212 72192219 72192291 72192292 72192299 72192310 72192320 72192390 72192411 72192412 72192413 72192419 72192421 72192422 72192423 72192429 72192490 72193111 72193112 72193121 72193122 72193190 72193210 72193220 72193290 72193310 72193320 72193390 72193410 72193420 72193490 72193510 72193520 72193590 72199011 72199012 72199013 72199090	तत्काल प्रभाव से
125.	आईएस 12262:1988	स्प्रिंग्स वॉशर के लिए ट्रेपोज़ाइडल स्टील वायर का विनिर्देशन	72299013 72299052 72179019	72179099 72299040	72299059 72299090	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
126.	आईएस 15911:2010	स्ट्रक्चरल स्टील (साधारण गुणवत्ता)- विनिर्देशन	72082510 72082520 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72085110 72085120 72085130	72085140 72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72119012 72119090 72139190 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730	72083820 72083830 72083840 72083890 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72089000 72111300	तत्काल प्रभाव से
127.	आईएस 4431: 1978	कार्बन और कार्बन-मैंगनीज फ्री-कटिंग स्टील्स के लिए विनिर्देशन	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920 72071990 72072010 72072090 72131010 72131090 72141090	72142090 72149110 72149190 72149990 72282000 72288090 72151000 72155010 72155090 72159090 72241000 72249040	72249091 72249099 72283029 72284000 72285090 72286093 72286099 72287011 72287012 72287021 72287022	तत्काल प्रभाव से
128.	आईएस 4432: 1988	केस हार्डनिंग स्टील्स के लिए विनिर्देशन	72072020 72241000 72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071990	72072010 72072090 72141090 72149190 72149990 72155090 72159090 72249040	72249091 72249099 72282000 72283029 72284000 72285090 72286099	तत्काल प्रभाव से
129.	आईएस 5518: 1996	ड्रॉप फोर्जिंग विनिर्देशन हेतु डार्ड ब्लॉक के लिए इस्पात	72249010 72249020 72249030 72249040 72281090	72241000 72283019 72283029 72283011 72283024	72286011 72286012 72286094 72286099	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
130.	आईएस 8748: 1978	फोर्ज्ड/रोल्ड सीटीसी सेगमेंट के लिए विनिर्देशन	72189100 72189990 72210011 72210012 72210019 72210090 72221111 72221112 72221119 72221191 72221192	72221199 72221911 72221912 72221919 72221991 72221992 72221999 72222011 72222012 72222019	72222091 72222092 72222099 72223011 72223012 72223019 72223091 72223092 72223099 72189910	तत्काल प्रभाव से
131.	आईएस 12145: 1987	प्रेसर वैसल्स के लिए क्वेंच और टेम्पर्ड अलॉय स्टील फोर्जिंग के लिए विनिर्देशन	72249040 72249099 72259900	72254011 72254012	72253090 72254019	तत्काल प्रभाव से
132.	आईएस 13387: 1992	धातु बनाने के लिए टूल स्टील फोर्जिंग - विनिर्देशन	72249010 72249020 72249030 72249040 72241000	72283011 72283019 72283024 72283029	72286011 72286012 72286094 72286099	तत्काल प्रभाव से
133.	आईएस 14698: 1999	रक्षा सेवाओं-विनिर्देशन में प्रयुक्त शेल बॉडी और प्रूफ शॉट्स के निर्माण के लिए कार्बन और लो अलॉय बिलेट्स, ब्लूम्स, स्लैब और बार्स	72071120 72071130 72071190 72071210 72071220 72071230 72071290 72071920	72071990 72072010 72072030 72072090 72141090 72149110 72149190	72149990 72155090 72155010 72159090 72241000 72249091 72249099	तत्काल प्रभाव से
134.	आईएस/ आईएसओ 11951: 2016	कोल्ड - रिड्यूस्ड टिनमिल उत्पाद - ब्लैकप्लेट	72101110 72101190 72101210 72101290 72121010 72121090 72091520 72091590 72091530 72091620	72091690 72091720 72091730 72091790 72091820 72091830 72091890 72092520 72092530 72092590	72092620 72092630 72092690 72092720 72092730 72092790 72092820 72092830 72092890	तत्काल प्रभाव से
135.	आईएस 3930: 1994	फ्लेम और इंडक्शन हार्डनिंग स्टील्स - विनिर्देशन	72249091 72249090 72281010 72281090 72283011 72283019	72283024 72284000 72283021 72283029 72283023 72285090	72286011 72286012 72286091 72286093 72286094 72286099	तत्काल प्रभाव से

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
136.	आईएस 5478: 1969	थर्मोस्टेट मेटल शीट और स्ट्रिप के लिए विनिर्देशन	72125090 72126000	72121090 72122090	72123090 72125090	तत्काल प्रभाव से
137.	आईएस 13352: 1992	कास्ट ब्लूमस, बिलेट्स और स्लैब से निर्मित फोर्जिंग के लिए स्टॉक-विनिर्देशन	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920 72071990 72072010 72072090 72141090 72142090 72149110 72149190 72149990 72155010 72155090 72159090	72241000 72249040 72249091 72249099 72271000 72272000 72279010 72279020 72279030 72279040 72279050 72279060 72279090 72281010 72281090 72282000 72283021	72283022 72283023 72283024 72283029 72284000 72285010 72285090 72286011 72286012 72286091 72286092 72286093 72286094 72286099 72288010 72288020 72288090	तत्काल प्रभाव से
138.	आईएस 16644: 2018	स्ट्रेस रिलीव्ड, लो रिलेक्सेशन स्टील वायर फॉर प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट-विनिर्देशन	72171010 72171020 72171030 72172010 72172020	72172030 72173010 72173020 72173030 72179011	72179012 72179013 72179019 72179091 72179099	तत्काल प्रभाव से
139.	आईएस 17404: 2020	गैलवनीकृत हॉट सेल्ड एवं कोल्ड रिड्यूस्ड कार्बन स्टील शीट्स और स्ट्रिप्स विनिर्देशन	72103010 72103090	72122010 72122090	72259100 72259900	तत्काल प्रभाव से
140.	आईएस 16732: 2019	गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चरल स्टील - विनिर्देशन	72082510 72082520 72082540 72082590 72082610 72082620 72082640 72082690 72082710 72082720 72082740 72082790 72083610 72083620 72083640 72083690	72083710 72083720 72083740 72083790 72083810 72083820 72083840 72083890 72083910 72083920 72083940 72083990 72084010 72084020 72084040 72084090	72085110 72085120 72085140 72085190 72085210 72085220 72085240 72085290 72085310 72085320 72085340 72085390 72085410 72085420 72085440 72085490	अधिसूचना की तारीख से 6 महीने

क्र. सं.	भारतीय मानक		आईटीसी (एचएस) कोड			कार्यान्वयन की तिथि
	आईएस संख्या	आईएस शीर्षक				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72169910	72169990	72089000	
141.	आईएस 17111: 2019 (आईएसओ 683-17: 2014)	हॉट ट्रीटेड इस्पात मिश्रधातु और फ्री कटिंग स्टील - बॉल एवं रोलर बियरिंग स्टील	72249030 72249091 72249099 72279030 72279050 72279060 72279090 72283019 72283021	72283023 72283029 72284000 72285090 72286012 72286091 72286093 72286099	72299059 72299090 73042990 73043119 73044100 73044900 73045110 73262010	अधिसूचना की तारीख से 3 महीने
142.	आईएस 12594: 1988	कंक्रीट रीइनफोर्समेंट के लिए स्ट्रकचरल स्टील बार्स पर हॉट डीप जिंक कोटिंग - विनिर्देशन	72159010 72159090			अधिसूचना की तारीख से 6 महीने
143.	आईएस 1170: 1992	फेरोक्रोमियम - विनिर्देशन	72024100 72024900	72025000	72029990	अधिसूचना की तारीख से 6 महीने
144.	आईएस 1171: 2011	फेरोक्रोमियम - विनिर्देशन	72021100	72021900	72029990	अधिसूचना की तारीख से 6 महीने
145.	आईएस 1470: 2013	सिलिकोमैंगनीज - विनिर्देशन	72023000	72029990		अधिसूचना की तारीख से 6 महीने

अनुसूची - 2

क्र. सं.	वस्तु एवं सामान	अनिवार्य आवश्यकताएं/खंड	आईटीसी (एचएस) कोड	कार्यान्वयन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्टैंपिंग/लैमिनेशन्स/ट्रांसफॉर्मर्स के कोर (वाइंडिंग के साथ और इसके बिना)	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से चिन्हित ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और आईएस 3024 : 2015 के अनुरूप स्ट्रिप या आईएस 648: 2006 या चुंबकीय सामग्री के अनुरूप कोल्ड रोलड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील शीट और स्ट्रिप से निर्मित - एकल सामग्री के लिए विनिर्देशन - आईएस 16585: 2016 के अनुरूप अर्ध-प्रसंस्कारित अवस्था में डिलीवर की गई लौह आधारित अमॉर्फस स्ट्रिप	85049010 85049090	31 दिसम्बर, 2020.

2.	स्टेनलैस स्टील पाइप्स एवं ट्यूब्स	पैरा 3 का उप-पैरा (4)	73041110 73041120 73041190 73042200 73042400 73044100 73044900 73051129 73051229 73053190 73053990 73059029 73059099 73061100 73062100 73064000 73066100 73066900 73069090	तत्काल प्रभाव से
3.	50 लीटर या उससे अधिक लेकिन 300 लीटर से अधिक नहीं, क्षमता वाले टिन प्लेट या टिन फ्री इस्पात से बने टैंक, कास्क्स, ड्रम, कैन्स, बॉक्स और इसी तरह के कंटेनर, (संपीडित या तरलीकृत गैस के अलावा) टिन प्लेट और टिन मुक्त कैन्स	पैरा 3 का उप-पैरा (5)	73101010 73101090 73102910 73102990	तत्काल प्रभाव से
4.	सोल्डरिंग अथवा क्रिपिंग के द्वारा बंद किए जाने वाले 50 लीटर या उससे कम क्षमता वाले टिन प्लेट या टिन फ्री स्टील से बने टैंक, कास्क्स, ड्रम, कैन्स, बॉक्स और इसी तरह के कंटेनर, (संपीडित या तरलीकृत गैस के अलावा), टिन प्लेट और टिन मुक्त कैन्स	पैरा 3 का उप-पैरा (5)	73102110 73102190 73102910 73102990	तत्काल प्रभाव से

5.	बेस मेटल के स्टॉपर्स, कैप और लिड्स (क्राउन कॉर्क, स्कू कैप और पोरिंग स्टॉपर्स सहित), बोटलों के लिए कैप्सूल, थ्रेडेड बंग, बंग कवर, सील्स और अन्य पैकिंग सामान। सभी प्रकार की पैकेजिंग के लिए चोरी को रोकने वाली वाशर अथवा वाशर या अन्य फिटिंग के बिना या साथ कॉर्क, रबर, पॉलीथीन या किसी अन्य सामग्री की कैप टिन प्लेट और टिन मुक्त स्टील की अन्य मुहरें	पैरा 3 का उप-पैरा (5)	83091000 83099010 83099030 83099090	तत्काल प्रभाव से
6.	टिन प्लेट और टिन मुक्त इस्पात की साइन-प्लेट्स, नेम प्लेट्स, एड्रेस प्लेट्स और इसी प्रकार की प्लेट्स, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक	पैरा 3 का उप-पैरा (5)	83100090	तत्काल प्रभाव से
7.	प्राथमिक सेल्स और प्राथमिक बैटरियों के पाटर्स	पैरा 3 का उप-पैरा (5)	85069000	तत्काल प्रभाव से

नोट : इस अधिसूचना के उद्देश्य से, 'आईटीसी (एचएस) कोड्स' का तात्पर्य क्रमशः अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 के कॉलम 4 में विनिर्दिष्ट भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड्स से है। ये कोड प्रकृति में सामान्य और सांकेतिक हैं तथा इस आदेश की प्रयोज्यता भारतीय मानकों में शामिल इस्पात एवं इस्पात उत्पादों तक सीमित होगी।

[फा. सं. एस-20011/10/2022-तकनीकी]

रुचिका चौधरी गोविल, अपर सचिव

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 5th February, 2024

S.O. 574(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2020, published vide notification number S.O. 4637(E), dated the 22nd December, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd December, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government being of the opinion that it is necessary to do so in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Order, 2024.

(2) Save as otherwise provided in this Order, it shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— This Order shall apply to steel and steel products specified in column (3) of Schedule 1 and goods or articles specified in column (2) of Schedule 2, annexed to this Order, except steel and steel products manufactured domestically for export which conform to any other specification required by a foreign buyer.

3. **Conformity to Standards and essential requirements.**— (1) Every steel and steel product specified in column (3) of Schedule 1 shall conform to the corresponding Indian Standards specified in column (2) of the said Schedule with effect from the dates specified in column (5) thereof.

(2) Every steel and steel products specified in column (3) of Schedule 1 shall be accompanied with a Test Certificate bearing the Standard Mark, issued by the Bureau of Indian Standards certified manufacturer, with each consignment.

(3) Goods and articles specified in column (2) of Schedule 2 against serial number 1 shall conform to the corresponding essential requirements specified in column (3) of the said Schedule under a Certificate of Conformity from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-IV of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

(4) Goods and articles specified in column (2) of Schedule 2 against serial number 2 shall be made from the stainless steel as input material, specified in column (3) of Schedule 1, conforming to Indian Standards specified in column (2) of Schedule 1, bearing Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme – I of Schedule – II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 and shall be accompanied with—

(a) the test certificate of the goods and articles specified in column (2) of Schedule 2 against serial number 2 with each consignment; and

(b) the test certificate bearing the Standard Mark of input material issued by the Bureau of Indian Standards certified manufacturer with each consignment.

(5) Goods and articles specified in column (2) of Schedule 2 against serial numbers 3, 4, 5, 6 and 7 shall be made from tin plate and tin free steel as input materials, as specified against serial numbers. 108 and 109 in column (3) of Schedule 1, conforming to Indian Standards specified in corresponding column (2) of Schedule 1, bearing Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme – I of Schedule – II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018 and shall be accompanied with the test certificate of the input material.

4. **Compulsory use of Standard Mark.**— (1) Every steel and steel products specified in column (3) of Schedule 1 shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

(2) The sub-standard or defective steel and steel product, which do not conform to the specified standard, shall be disposed off as scrap in such a way so that there is no violation of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

5. **Certifying and enforcement authority.**— The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the steel and steel products and the goods and articles specified in this Order.

6. **Penalty for contravention.**— Any person who contravenes any of the provisions of this Order shall be punishable under section 29 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

7. **Date of effect of amendment or revision in Indian Standards.**— Any amendment or revision made by the Bureau of Indian Standards to any of the Indian Standards specified in column (2) of Schedule 1 shall apply to this Order with effect from the date of its publication by the said Bureau.

SCHEDULE 1

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	IS 1785 (Part-1): 1983	Specification for plain Hard-drawn Steel Wire for Pre-stressed Concrete; Part 1 Cold - Drawn Stress relieved Wire.	72171010	72179091	72179099	With immediate effect.
2.	IS 1785 (Part-2): 1983	Plain Hard-drawn Steel Wire for Pre-stressed Concrete; Part 2 as Drawn Wire.	72171010	72179091	72179099	With immediate effect.
3.	IS 6003: 2010	Indented Wire for Pre-stressed Concrete – Specification.	72171010	72179091	72179099	With immediate effect.
4.	IS 6006: 2014	Uncoated Stress Relieved Strand for Pre-stressed Concrete – Specification.	73121030			With immediate effect.
5.	IS 13620: 1993	Fusion Bonded Epoxy Coated Reinforcing Bars – Specification.	72142090	72159090		With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
6.	IS 14268: 2022	Uncoated Stress Relieved Low Relaxation Seven- wire (Ply) Strand for Pre-stressed Concrete – Specification.	73121030			With immediate effect.
7.	IS 277: 2018	Galvanized Steel Sheets (Plain and Corrugated) – Specification.	72104100 72104900	72123010 72123090		With immediate effect.
8.	IS 2002: 2009	Steel plates for pressure vessels for intermediate and high temperature service including boilers.	72085110 72085120 72085210	72085220 72111300 72111420	72111490 72119011 72119090	With immediate effect.
9.	IS 2041: 2009	Steel Plates for Pressure Vessels Used at Moderate and Low Temperature – Specification.	72085110 72085120 72085210	72085220 72111300 72111420	72111490 72119090	With immediate effect.
10.	IS 2830: 2012	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes – Specification.	72061090	72071190 72071290	72071920 72071990	With immediate effect.
11.	IS 1786: 2008	High strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement- Specification except for High strength deformed steel bars and wires of sizes less than 8 mm.	72131090	72142090		With immediate effect.
12.	IS 648: 2022	Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip - Fully processed type- Specification.	72251920 72251990	72261920 72261990		With immediate effect.
13.	IS 3024: 2015	Grain Oriented Electrical Steel Sheet and Strip.	72251100	72261100		With immediate effect.
14.	IS 15391: 2003	Cold Rolled Non-Oriented Electrical Steel Sheet and Strip – Semi-Processed Type-Specification.	72251920 72251990	72261920 72261990	72091720 720917307 2091790	With immediate effect.
15.	IS 1875: 1992	Carbon steel billets, blooms, slabs and bars for forgings.	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920	72071990 72072010 72072090 721491907 214999072 159090	72249040 72249091 72249099 72283029 72286099	With immediate effect.
16.	IS 3502: 2009	Steel Chequered Plates.	72081000 72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72111410	72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72119013	72119090 72254019 72259900 72269130 72269190 72269910 72269990	With immediate effect.
17.	IS 2062: 2011	Hot rolled medium and high tensile structural steel except for bars and rods of diameter or thickness less than 6 mm and structurals below (50 mm x 50 mm x 6 mm).	72082510 72082520 72082690 72082710 72082720 72082730	72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72085110	72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890	72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72089000 72111300 72111410	72119012 72119090 72139190 72149190 72149990 72139990 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000 73011000 73012010 73012090	
18.	IS 432 (Part 1): 1982	Specification for Mild Steel and Medium Tensile Steel Bars and Hard-Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement: Part 1 Mild steel and medium tensile steel bars.	72139190 72139990 72149190	72149990 72159090 72279090	72283019 72283029 72286099	With immediate effect.
19.	IS 432 (Part 2): 1982	Specification for Mild steel and Medium Tensile steel bars and Hard-Drawn Steel Wire for Concrete Reinforcement: Part 2 Hard-Drawn Steel Wire.	72171010 72171020 72171030 72179091	72179099 72299031 72299033	72299040 72299059 72299090	With immediate effect.
20.	IS 513 (Part 1): 2016	Cold reduced carbon steel sheets and strip: Part 1 Cold Forming and Drawing Purpose.	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890 72092510 72092520	72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092710 72092720 72092730 72092790 72092810 72092820 72092830 72092890 72099000 72112310 72112320 72112330	72112340 72112350 72112390 72112940 72112950 72112990 72119012 72119090 72255010 72255020 72259900 72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	With immediate effect.
21.	IS 513 (Part 2): 2016	Cold reduced low carbon steel sheets and strip: Part 2 High Tensile and Multi-phase Steel.	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630	72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092710	72112330 72112340 72112350 72112390 72112940 72112950 72112990	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890 72092510	72092720 72092730 72092790 72092810 72092820 72092830 72092890 72099000 72112310 72112320	72119090 72255010 72255020 72259900 72269210 72269220 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	
22.	IS 1079: 2017	Hot Rolled Carbon Steel Sheet, Plate and Strip.	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890 72083910	72083920 72083930 72083940 72083990 72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72085410 72085420 72085430 72085440 72085490 72089000 72111300 72111410 72111420 72111430 72111440 72111450	72111460 72111490 72111910 72111920 72111930 72111940 72111950 72111960 72111990 72119090 72253010 72253090 72254011 72254012 72254013 72254019 72254020 72254030 72259900 72269110 72269120 72269130 72269190 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269953 72269960 72269990	With immediate effect.
23.	IS 2879: 1998	Mild steel for metal arc welding electrodes.	72132010 72132090 72139110	72139190 72139910 72139990	72179092 72179099	With immediate effect.
24.	IS 5872: 1990	Cold Rolled Steel Strips (Box Strappings).	72112350 72112390 72112950	72112990 72125090 72262030	72269210 72269930 72269952 72269990	With immediate effect.
25.	IS 5986: 2017	Hot Rolled Steel Sheet, Plate and Strip for Forming and Flanging purposes.	72082510 72082520	72085140 72085190	72253090 72254013	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72082530	72083920	72254019	
			72082540	72083930	72254020	
			72082590	72083940	72254030	
			72082610	72083990	72259900	
			72082620	72084010	72269110	
			72082630	72084020	72269120	
			72082640	72084030	72111490	
			72082690	72084040	72111910	
			72082710	72084090	72111920	
			72082720	72085110	72111930	
			72082730	72085120	72111940	
			72082740	72085210	72111950	
			72082790	72085220	72111960	
			72083610	72085230	72111990	
			72083620	72085240	72119012	
			72083630	72085290	72119090	
			72083640	72085310	72253090	
			72083690	72085320	72254013	
			72083710	72085330	72254019	
			72083720	72085340	72254020	
			72083730	72085390	72254030	
			72083740	72085410	72259900	
			72083790	72085420	72269110	
			72083810	72085430	72269120	
			72083820	72085440	72269130	
			72083830	72085490	72269190	
			72083840	72089000	72269910	
			72083890	72111300	72269920	
			72083910	72111410	72269930	
			72084010	72111420	72269940	
			72084020	72111430	72269951	
			72084030	72111440	72269952	
			72084040	72111450	72269953	
			72084090	72269130	72269960	
			72085130	72111460	72269990	
26.	IS 6240: 2008	Hot Rolled Steel Plate (up to 6 mm) Sheet and Strip for the Manufacture of Low-Pressure Liquefiable Gas Cylinders.	72082510	72083910	72111930	With immediate effect.
			72082520	72083920	72111940	
			72082530	72083930	72111950	
			72082540	72083940	72111960	
			72082590	72083990	72111990	
			72082610	72085210	72119090	
			72082620	72085220	72253090	
			72082630	72085230	72254012	
			72082640	72085240	72254013	
			72082690	72085290	72254019	
			72082710	72085310	72254020	
			72082720	72085320	72254030	
			72082730	72085330	72259900	
			72082740	72085340	72269110	
			72082790	72085390	72269120	
			72083610	72085410	72269130	
			72083620	72085420	72269190	
			72083630	72085430	72269910	

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890	72085440 72085490 72089000 72111410 72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72111910 72111920	72269920 72269930 72269940 72269951 72269953 72269990	
27.	IS 7283: 1992	Hot Rolled bars for production of bright bars and machined parts for engineering applications.	72131010 72131090 72132010 72132020 72132090 72139110 72139120 72139190 72139910 72139920 72139990 72141010 72141090 72143000 72149110 72149190	72149910 72149990 72155010 72155090 72159010 72159020 72159090 72271000 72272000 72279010 72279020 72279030 72279040 72279050 72279060 72279090	72281010 72281090 72282000 72283011 72283019 72283021 72283022 72283023 72283029 72284000 72285010 72285090 72286091 72286092 72286093 72286099	With immediate effect.
28.	IS 7887: 1992	Mild steel wire rods for general engineering purposes.	72139190	72139990	72279090	With immediate effect.
29.	IS 10748: 2004	Hot Rolled Steel Strip for Welded Tubes and Pipes.	72082540 72082590 72082640 72082690 72082740 72082790 72083640 72083690 72083740 72083790 72083840 72083890 72083940 72083990	72085240 72085290 72085340 72085390 72085440 72085490 72089000 72111450 72111460 72111490 72111950 72111960 72111990 72119090	72253090 72259900 72269110 72269120 72269130 72269190 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269953 72269960 72269990	With immediate effect.
30.	IS 11513: 2017	Hot Rolled Carbon Steel Strip for Cold Rolling Purposes.	72082540 72082590 72082640 72082690 72082740 72082790 72083640 72083690	72083990 72089000 72111450 72111460 72111490 72111950 72111960 72111990	72269120 72269130 72269190 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72083740 72083790 72083840 72083890 72083940	72119090 72253090 72259900 72269110	72269952 72269953 72269960 72269990	
31.	IS 15647: 2006	Hot rolled steel narrow width strip for welded tubes and pipes.	72111300 72111450 72111460	72111490 72111950 72111960	72111990 72119090	With immediate effect.
32.	IS 7904: 2018	High Carbon Steel Wire Rods – Specification.	72139190	72139990		With immediate effect.
33.	IS 14246: 2013	Continuously pre-painted galvanized steel sheets and coils.	72107000	72109090 72124000	72259900 72259200	With immediate effect.
34.	IS 15965: 2012	Pre-painted aluminium zinc alloy metallic coated steel strip and sheet (plain).	72107000 72109090	72124000	72259200 72259900	With immediate effect.
35.	IS 280: 2006	Mild steel wire for General Engineering purposes.	72171010 72171020 72171030	72172010 72172020 72172030	72173010 72173020 72173030	With immediate effect.
36.	IS 1835: 1976	Round steel wire for ropes.	72171010 72171020 72171030	72172010 72172020 72172030	72179091 72179099 72299033 72299040	With immediate effect.
37.	IS 3975: 1999	Low carbon Galvanized steel wires, formed wires and Tapes for armouring of cables.	72172010 72172020 72172030 72179011	72179012 72179013 72179019 72179091	72179092 72179093 72179099	With immediate effect.
38.	IS 4368: 1967	Alloy Steel billets, blooms and slabs for forging for general engineering purposes.	72249091	72249099		With immediate effect.
39.	IS 4454 (Part 1): 2001	Steel wires for mechanical springs, Part 1 cold drawn unalloyed steel wire.	72171010 72171020 72171030	72172010 72172020 72172030 72173010	72173020 72173030 72179091 72179099	With immediate effect.
40.	IS 4454 (Part 2): 2001	Steel wire for mechanical springs Part 2: oil hardened and tempered steel wire.	72171010 72171020 72171030 72179091	72179099 72292000 72299032	72299033 72299034 72299040 72299090	With immediate effect.
41.	IS 4824: 2022	Bead Wires for Tyres.	72171010 72171020	72171030 72173010 72173020	72173030 72179091 72179099	With immediate effect.
42.	IS 11169 (Part 1): 2022	Steels for Cold Heading/ Cold extrusion application Part-1 Wrought carbon and low alloy steels.	72132020 72139120 72139920 72141090 72149110 72149990	72171010 72171020 72171030 72279040 72279090	722830297 2284000 72286012 72286099 72299040 72299090	With immediate effect.
43.	IS 11587: 1986	Structural Weather resistant steel.	72081000 72082510 72082520 72082530 72082540	72085410 72085420 72085430 72085440 72085490	72122090 72123010 72123090 72124000 72125010	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72082590	72089000	72125020	
			72082610	72091510	72125090	
			72082620	72091520	72126000	
			72082630	72091530	72141090	
			72082640	72091590	72149190	
			72082690	72091610	72149990	
			72082710	72091620	72161000	
			72082720	72091630	72162100	
			72082730	72091690	72162200	
			72082740	72091710	72163100	
			72082790	72091720	72163200	
			72083610	72091730	72163300	
			72083620	72091790	72164000	
			72083630	72091810	72165000	
			72083640	72091820	72166100	
			72083690	72091830	72166900	
			72083710	72091890	72169100	
			72083720	72092510	72169910	
			72083730	72092520	72169920	
			72083740	72092530	72169930	
			72083790	72092590	72169940	
			72083810	72092620	72169990	
			72083820	72092630	72255010	
			72083830	72092690	72255020	
			72083840	72092710	72255030	
			72083890	72092720	72253090	
			72083910	72092730	72254019	
			72083920	72092790	72254020	
			72083930	72092810	72254030	
			72083940	72092820	72255010	
			72083990	72092830	72255020	
			72084010	72092890	72255030	
			72084020	72099000	72269110	
			72084030	72111300	72269120	
			72084040	72111410	72269130	
			72084090	72111420	72269190	
			72085110	72111430	72269210	
			72085120	72111440	72269220	
			72085130	72111450	72269230	
			72085140	72111460	72269910	
			72085190	72111490	72269920	
			72085210	72111910	72269930	
			72085220	72111920	72269940	
			72085230	72111930	72269951	
			72085240	72111940	72269952	
			72085290	72111950	72269990	
			72085310	72111960	72279090	
			72085320	72111990	72287011	
			72085330	72121010	72287012	
			72085340	72121090	72287021	
			72085390	72122010	72287022	
44.	IS 15103: 2002	Fire resistant steel – Specification.	72081000 72082510	72085410 72085420	72122090 72123010	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72082520	72085430	72123090	
			72082530	72085440	72124000	
			72082540	72085490	72125010	
			72082590	72089000	72125020	
			72082610	72091510	72125090	
			72082620	72091520	72126000	
			72082630	72091530	72141090	
			72082640	72091590	72149190	
			72082690	72091610	72149990	
			72082710	72091620	72161000	
			72082720	72091630	72162100	
			72082730	72091690	72162200	
			72082740	72091710	72163100	
			72082790	72091720	72163200	
			72083610	72091730	72163300	
			72083620	72091790	72164000	
			72083630	72091810	72165000	
			72083640	72091820	72166100	
			72083690	72091830	72166900	
			72083710	72091890	72169100	
			72083720	72092510	72169910	
			72083730	72092520	72169920	
			72083740	72092530	72169930	
			72083790	72092590	72169940	
			72083810	72092620	72169990	
			72083820	72092630	72255010	
			72083830	72092690	72255020	
			72083840	72092710	72255030	
			72083890	72092720	72253090	
			72083910	72092730	72254019	
			72083920	72092790	72254020	
			72083930	72092810	72254030	
			72083940	72092820	72255010	
			72083990	72092830	72255020	
			72084010	72092890	72255030	
			72084020	72099000	72269110	
			72084030	72111300	72269120	
			72084040	72111410	72269130	
			72084090	72111420	72269190	
			72085110	72111430	72269210	
			72085120	72111440	72269220	
			72085130	72111450	72269230	
			72085140	72111460	72269910	
			72085190	72111490	72269920	
			72085210	72111910	72269930	
			72085220	72111920	72269940	
			72085230	72111930	72269951	
			72085240	72111940	72269952	
			72085290	72111950	72269990	
			72085310	72111960	72279090	
			72085320	72111990	72287011	
			72085330	72121010	72287012	
			72085340	72121090	72287021	

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title	(4)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72085390	72122010	72287022	
45.	IS 15914: 2011	High Tensile Strength Flat Rolled Steel Plate (Up To 6 mm), Sheet and Strip for the Manufacture of Welded Gas Cylinder.	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890 72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72085110 72085120	72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72085410 72085420 72085430 72085440 72085490 72091820 72091830 72091890 72092510 72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092710 72092720 72092730 72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730	72091790 72091810 72092790 72092810 72092820 72092830 72092890 72099000 72111300 72111410 72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72111910 72111920 72111930 72111940 72111950 72111960 72111990 72253090 72254019 72254020 72254030 72255010 72255020 72255030 72269110 72269120 72269130 72269190 72269910 72269920 72269930 72269940 72269951 72269952 72269990	With immediate effect.
46.	IS 15961: 2012	Hot Dip aluminium – Zinc alloy metallic coated steel strip and sheet (plain).	72106100 72106900	72123090 72125090	72259200 72259900	With immediate effect.
47.	IS 15962: 2012	Structural Steel for Building for Structures with improved seismic Resistance.	72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72085110 72085120	72111440 72111450 72111460 72111490 72111910 72111920 72111930	72163300 72164000 72165000 72166100 72166900 72169100 72169910	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72111300 72111410 72111420 72111430	72111940 72111950 72111960 72111990 72119090 72141090 72149190 72149990 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200	72169920 72169930 72169940 72169990 72255030 72259900 72269110 72269120 72269130 72269190 72287011 72287012 72287021 72287022	
48.	IS 6527: 1995	Stainless Steel Wire Rod.	72210011 72210012 72210019 72210090 72221191 72221192	72221199 72221991 72221992 72221999 72222091 72222092	72222099 72223091 72223092 72223099	With immediate effect.
49.	IS 6528 :1995	Stainless Steel Wires.	72230091	72230092	72230099	With immediate effect.
50.	IS 6603: 2001	Stainless Steel Bars and Flats.	72221111 72221112 72221119 72221191 72221192 72221199 72221911 72221912	72221919 72221991 72221992 72221999 72222011 72222012 72222019 72222091	72222092 72222099 72223011 72223012 72223019 72223091 72223092 72223099	With immediate effect.
51.	IS 5522: 2014	Stainless steel sheets and strips for utensils – Specification.	72191300 72191400 72192310 72192320 72192390 72192411 72192412 72192413 72192419 72192421 72192422	72192423 72192429 72192490 72193210 72193220 72193290 72193310 72193320 72193390 72193410 72193420	72193490 72193510 72193520 72193590 72199012 72199013 72199090 72201290 72202090 72209090	With immediate effect.
52.	IS 6911: 2017	Stainless steel plate, sheet and strip – Specification.	72191111 72191112 72191190 72191200 72191300 72191400 72192111 72192112 72192121 72192122 72192131	72192412 72192413 72192419 72192421 72192422 72192423 72192429 72192490 72193111 72193112 72193121	72199011 72199012 72199013 72199090 72201110 72201121 72201122 72201129 72201190 72201210 72201221	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72192132 72192141 72192142 72192190 72192211 72192212 72192219 72192291 72192292 72192299 72192310 72192320 72192390 72192411	72193122 72193190 72193210 72193220 72193290 72193310 72193320 72193390 72193410 72193420 72193490 72193510 72193520 72193590	72201222 72201229 72201290 72202010 72202021 72202022 72202029 72202090 72209010 72209021 72209022 72209029 72209090	
53.	IS 15997: 2012	Low Nickel Austenitic Stainless-Steel Sheet and Strip for Utensils and Kitchen Appliances – Specification.	72191300 72191400 72192320 72192390 72192421 72192422 72192423 72192429	72192490 72193220 72193290 72193320 72193390 72193420 72193490 72193520	72193590 72199012 72199013 72199090 72201290 72202090 72209090	With immediate effect.
54.	IS 1110: 1990	Ferrosilicon – Specification.	72022100	72022900		With immediate effect.
55.	IS 4409: 2023	Specification for Ferronickel.	72026000			23 rd January, 2024
56.	IS 1029: 1970	Specification for Hot rolled steel strip (bailing).	72111450 72111460 72111490	72111950 72111960 72111990	72269951 72269990	With immediate effect.
57.	IS 2385: 1977	Specification for Hot-rolled mild steel sheet and strip in coil form for cold-reduced tinplate and cold-reduced black plate.	72082530 72082540 72082590 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790	72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790	72083830 72083840 72083890 72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72253090 72259900	With immediate effect.
58.	IS 3039: 1988	Specification for Structural steel for construction of hulls of ships.	72084010 72084020 72084030 72084040 72084090 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230	72089000 72111300 72111410 72111420 72111490 72111910 72111920 72111990 72119013 72119090 72141090 72149110 72149190	721610007 2162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000 72166100 72166900 72169100 72169910 72169920	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72085240 72085290	72149990 72155090 72159090	72169930 72169940 72169990	
59.	IS 9550: 2001	Bright steel bars – Specification.	72149110 72149190 72151000 72155010 72155090 72210011 72210012 72210019 72210090 72211111 72211112 72211119 72211191 72211192 72211199 72211911 72211912	72211919 72211991 72211992 72211999 72222011 72222012 72222019 72222091 72222092 72222099 72223011 72223012 72223019 72223091 72223092 72223099	72281010 72281090 72283011 72283019 72283021 72283022 72283023 722830247 2283029 72286011 72286012 72286091 72286092 72286093 72286094 72286099	With immediate effect.
60.	IS 3748: 2022	Tool Steels – Specification.	72141090 72149190 72149990 72155090 72159090 72241000 72249010 72249030 72249040 72249091 72249099 72253090 72255010 72255020 72255030	72259900 72262011 72262012 72262021 72262022 72262030 72271000 72272000 72279090 72281010 72281090 72283011 72283019 72283024 72283029	72284000 72285090 72286011 72286012 72286094 72286099 72287011 72287012 72287021 72287022 72288010 72288020 72288090	With immediate effect.
61.	IS 5517: 1993	Steel for hardening and tempering – Specification.	72084090 72085190 72085290 72089000	72149190 72149990 72299034	72299090 73261910 73261990	With immediate effect.
62.	IS 7494: 1981	Specification for Steel for valves for Internal Combustion Engines	72141090 72149110 72149190 72149990 72159090	72279090 72281090 72283019 72283029 72284000	72285010 72285090 72286012 72286099	With immediate effect.
63.	IS 12146: 1987	Specification for Carbon manganese steel forgings for pressure vessels.	72084090 72085190	72085290 72089000	72149190 72149990	With immediate effect.
64.	IS 16585: 2016	Magnetic materials – specification for individual material – Fe based amorphous strip delivered in the semi-processed state.	72251910 72251920	72251990 72261990	72269930 72269990	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
65.	IS 2831: 2012	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into structural steel (ordinary quality) – Specification.	72061090 72071190 72071290	72071910 72071920	72071990 72072090	With immediate effect.
66.	IS 1148: 2009	Steel Rivet Bars (medium And High Tensile) – For Structural Purposes.	72149990	72286099		With immediate effect.
67.	IS 1673: 1984	Specification for Mild Steel Wire, Cold Heading Quality.	72179019	72179091	72179099	With immediate effect.
68.	IS 1812: 1982	Specification for Carbon Steel Wire for the Manufacture of Wood Screws.	72171010 72171020 72171030 72172010	72172020 72172030 72179019 72179091	72179099 72299031 72299033 72299059 72299090	With immediate effect.
69.	IS 2507: 1975	Specification for Cold – rolled Steel Strips for Springs.	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 72091790 72091810 72091820 72091830 72091890	72092510 72092520 72092530 72092820 72092830 72092890 72099000 72112310 72112320 72112330 72112340 72112350 72112390 72112910 72112920 72112930 72112940 72112950	72112960 72112990 72119090 72255010 72255020 72255030 72259900 72269210 72269220 72269230 72269910 72269920 72269930 72269940 72269952 72269953 72269990	With immediate effect.
70.	IS 2255: 1977	Specification for Mild Steel Wire Rod for the Manufacture of Machine Screws (By Cold Heading Process).	72132020	72139120	72139920	With immediate effect.
71.	IS 3195: 1992	Steel For the Manufacture of Volute and Helical Springs (for Railway Rolling Stock) – Specification.	72141010 72141090 72142010 72149190	72149910 72149990 72283019 72283022	72283029 72285090 72286092 72286099	With immediate effect.
72.	IS 3431: 1982	Specification for Steel for the manufacture of volute, helical and laminated springs for automotive suspension.	72141010 72141090 72142010 72149190 72149910	72149990 72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099 72282000	With immediate effect.
73.	IS 3885 Part-1: 1992	Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part 1: Flat Sections – Specification.	72149190 72149910 72149990	72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099	With immediate effect.
74.	IS 3885 Part-2: 1992	Steel for the manufacture of laminated springs (railway rolling stock) Part 2: Rib and Groove Sections- Specification.	72142010 72149190 72149910 72149990	72283019 72283022 72283029	72285090 72286092 72286099	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
75.	IS 4223: 1975	Specification for Steel Wire for Umbrella Ribs.	72171010 72172010	72179091	72179099	With immediate effect.
76.	IS 4224: 1972	Specification for Steel Wire for Staples, Pins and Clips.	72171020 72171030 72179099	72299033 72299052	72299059 72299090	With immediate effect.
77.	IS 4397: 1999	Cold-rolled Carbon Steel Strips for Ball and Roller Bearing Cages/ Retainers- Specification.	72091510 72091520 72091530 72091590 72091610 72091620 72091630 72091690 72091710 72091720 72091730 720917907 2091810 72091820 72091830	72091890 72092510 72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092710 72092720 72092730 72092790 72092810 72092820 72092830	72092890 72099000 72112310 72112320 72112330 72112340 72112350 72112390 72112910 72112920 72112930 72112940 72112950 72112960 72112990 72119090	With immediate effect.
78.	IS 4398: 1994	Carbon-chromium Steel for the Manufacture of Balls, Rollers and Bearing Races- Specification.	72249091 72249099 72279030 72279090	72283019 72283029 72284000 72285090	72286012 72286099 72299059 72299090	With immediate effect.
79.	IS 6902: 1973	Specification for Steel Wire for spokes.	72171010 72172010 72179019 72179091	72179099 72299033 72299034	72299040 72299059 72299090	With immediate effect.
80.	IS 6967: 1973	Specification for Steel for Electrically welded round Link Chains.	72071120 72071190 72071220 72071290 72071920	72071990 72072010 72072090 72141090 72142090 72149190	72149990 72249091 72249099 72284000 72285090 72286099	With immediate effect.
81.	IS 7226: 1974	Specification for Cold rolled medium, high carbon and low alloy steel strip for general engineering purposes.	72112310 72112320 72112330 72112340 72112350 72112390	72112910 72112920 72112930 72112940 72112950	72112960 72112390 72269210 72269930 72269952 72269990	With immediate effect.
82.	IS 7557: 1982	Specification for Steel Wire: (Up to 20 mm) for the manufacture of cold-forged rivets.	72139120 72139190 72139920 72139990 72149990 72171010	72179019 72179091 72179099 72279040 72279090 72284000	72285090 72286099 72299033 72299040 72299059 72299090	With immediate effect.
83.	IS 8052: 2006	Steel ingots, billets and blooms for the production of springs, rivets and screws for general engineering applications – Specification.	72071120 72071190 72071220 72071290	72071920 72071990 72072010 72072090	72241000 72249091 72249099	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
84.	IS 8951: 2001	Steel Cast Billet Ingots, Billets and Blooms for production of High Carbon Steel Wire Rods-Specification.	72061020 72061090	72241000 72249091 72249099		With immediate effect.
85.	IS 8952: 1995	Steel ingots, blooms and billets for production of mild steel wire rods for general engineering purposes – Specification.	72071190 72071290	72071920 72071990	72072090	With immediate effect.
86.	IS 9476: 1980	Specification for Cold rolled steel strips for carbon steel razor blades.	72119090 72269210	72269930 72269952	72269990	With immediate effect.
87.	IS 9962: 1981	Specification for Steel Wire for Needles.	72171010 72171020	72171030 72179019	72179091 72179099	With immediate effect.
88.	IS 14331: 1995	Steels for High Temperature Bolting Applications – Specification.	72282000 72283019	72283029	72284000	With immediate effect.
89.	IS 14650: 1999	Carbon Steel Cast Billet Ingots Billets Blooms and Slabs for Re-rolling purposes- Specification.	72061010 72061020 72061090 72069099 72071110 72071120 72071130 72071190	72071210 72071220 72071230 72071290 72071910 72071920 72071990 72072010	72072020 72072030 72072090 72241000 72249010 72249020 72249030 72249091 72249099	With immediate effect.
90.	IS 4882: 1979	Specification for Low Carbon Steel Wire for Rivets for Use in Bearing Industry.	72171010 72171020 72171030 72172010 72172020 72172030	72173010 72173020 72173030 72179019 72179091 72179099	72299031 72299033 72299040 72299052 72299059 72299090	With immediate effect.
91.	IS 2090: 1983	Specification For High Tensile Steel Bars Used in Pre-stressed Concrete.	72149990	72283029	72286099	With immediate effect.
92.	IS 6529: 1996	Stainless Steel Blooms Billets and Slabs for Forging.	72181000 72189100	72189910	72189990	With immediate effect.
93.	IS 9294: 1979	Cold-Rolled Stainless-Steel Strips for Razor Blades.	72202021 72202022 72202029	72202090 72209021 72209022	72209029 72209090	With immediate effect.
94.	IS 10631: 1983	Stainless steel for welding electrode core wire.	72181000 72189100 72189910 72189990 72210090	72222011 72222012 72222019 72222091 72222092	72222099 72230010 72230091 72230092 72230099	With immediate effect.
95.	IS 10632 (Part 2): 1983	Specification for Non-Magnetic stainless steels for electrical applications: Part 2 Specific requirements for binding wire.	72230091	72230092	72230099	With immediate effect.
96.	IS 10632 (Part 3): 1983	Specifications for Non-Magnetic stainless steels for electrical applications: Part 3 Specific requirements for	72191111 72191112 72191190	72192412 72192413 72192419	721990117 219901272 199013 72199090	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		sheets, strips and plates.	72191200 72191300 72191400 72192111 72192112 72192121 72192122 72192131 72192132 72192141 72192142 72192190 72192211 72192212 72192219 72192291 72192292 72192299 72192310 72192320 72192390 72192411	72192421 72192422 72192423 72192429 72192490 72193111 72193112 72193121 72193122 72193190 72193210 72193220 72193290 72193310 72193320 72193390 72193410 72193420 72193490 72193510 72193520 72193590	72201110 72201121 72201122 72201129 72201190 72201210 72201221 72201222 72201229 72201290 72202010 72202021 72202022 72202029 72202090 72209010 72209021 72209022 72209029 72209090	
97.	IS 11169 (Part 2): 1989	Steels for cold heading/ cold extrusion applications – specification: Part 2 Stainless steel.	72222011 72222012 72222019 72222091 72222092 72222099	72223011 72223012 72223019 72223091 72223092 72223099	72224010 72224020 72223091 72223092 72223099	With immediate effect.
98.	IS 5651: 1987	Steels for Pneumatic Tools.	72241000 72249010 72249020 72249030	72249040 72249091 72249099 72283024	72286094 72288010 72288020 72288090	With immediate effect.
99.	IS 9516: 1980	Heat Resisting Steel.	72089000 72099000 72109090 72119090	72149990 72192111 72192112 72192121	72192122 72192211 72192212 72192219	With immediate effect.
100.	IS 11952: 1986	Steels For Piston Pins (gudgeon Pins).	72286012			With immediate effect.
101.	IS 12045: 1987	Alloys Used in Electrical Resistance Metallic Heating Elements.	72201190 72201290 72202090 72209090	72210090 72217222 72230091	72230092 72230099 72299060	With immediate effect.
102.	IS 14652: 1999	18 Percent Nickel Maraging Steel Bars and Rods.	72210012 72210019 72210090 72221112 72221119 72221192	72221199 72221912 72221919 72221992 72221999 72222012	72222019 72222092 72222099 72223012 72223092 72229090	With immediate effect.
103.	IS 1566: 1982	Specification for Hard-drawn Steel Wire Fabric for Concrete Reinforcement.	72171010	72179091	72179099	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
104.	IS 11946: 1987	Soft Magnetic Iron Strips.	72091530 72091630 72091730 72091830 72092530 72092630 72092730 72092830	72099000 72112350 72112950 72255010 72255020 72255030 72259900 72269210	722692207 2269230 72269910 72269920 72269930 72269940 72269952 72269990	With immediate effect.
105.	IS 11947: 1987	Soft Magnetic Iron Rods, Bars, Flats and Sections.	72155090 72159090 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300	72164000 72165000 72166100 72166900 72169100 72169930 72169940 72169990	72285090 72286012 72286099 72287011 72287012 72287021 72287022 72288090	With immediate effect.
106.	IS 963: 1958	Chrome molybdenum steel bars and rods for aircraft purposes.	72141090 72149110 72149190 72149990 72155010 72155090 72159090 72221111 72221119 72221191	72221199 72221911 72221919 72221991 72221999 72222011 72222019 72222091 72222099 72223011	72223019 72223091 72223099 72283019 72283029 72284000 72285090 72286012 72286099	With immediate effect.
107.	IS 4454 (Part 4): 2001	Steel Wires for Mechanical Springs - Part 4: Stainless Steel Wire.	72230091	72230092	72230099	With immediate effect.
108.	IS 1993: 2018	Cold-reduced Electrolytic Tin Plate.	72101110 72101190 72101210	72101290 72107000 72109010	72109090 72121010 72121090 72124000	With immediate effect.
109.	IS 12591: 2018	Cold reduced electrolytic chromium / Chromium oxide – coated steel.	72105000	72125090		With immediate effect.
110.	IS 412: 1975	Specification for Expanded Metal Steel Sheets for General Purposes.	72083830 72083930 72085330 72085340 72085390 72085430 72085440 72085490 72089000 72091520	72091530 72091590 72091620 72091630 72091690 72091720 72091730 72091790 72091820 72091830	72091890 72092520 72092530 72092590 72092620 72092630 72092690 72092720 72092730 72092790 72099000	With immediate effect.
111.	IS 2100: 1970	Specification for Steel Billets, Bars and Sections for Boilers.	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920 72071990	72249091 72249099 72141090 72142090 72119090 72149110 72149190	72283029 72284000 72285090 72286099 72287011 72287012 72287021	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72072010 72072090 72241000 72249040	72149990 72155010 72155090 72159090	72287022 72254011 72119011	
112.	IS 2589: 1975	Specification for Hard Drawn Steel Wire for Upholstery Springs.	72292000 72299011 72299012 72299013 72299014 72299015 72299016 72299031 72299032 72299033	72299034 72299040 72299051 72299052 72299053 72299054 72299059 72299070 72299090 72171010	72171020 72171030 72172010 72172020 72172030 72173010 72173020 72173030 72179099	With immediate effect.
113.	IS 3298: 1981	Specification for Mild Steel Rivet Bars for Ship Building.	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920 72071990 72072010 72072090 72249099	72141090 72142090 72149110 72149190 72149990 72155010 72155090 72159090 72283019 72283029	72284000 72285090 72286099 72287011 72287012 72287021 72287022 73182300 73182990	With immediate effect.
114.	IS 4072: 1975	Specification for Steel for Spring Washers.	72141010 72142010 72149910 72149990 72253010	72269953 72279020 72283022 72283029 72286092	72286099 72288090 72299032 72299040	With immediate effect.
115.	IS 8510 (Part II): 1977	Specification for Tinned Steel Wire for Banding of Armatures and Rotors: Part II Specific Requirements for magnetic banding wires.	72173010 72173020 72173030 72179099 72299011			With immediate effect.
116.	IS 8510 (Part III): 1977	Specification for Tinned Steel Wire for Banding of Armatures and Rotors: Part III Specific Requirements for non-magnetic banding wires.	72173010 72173020 72173030 72179099 72299011			With immediate effect.
117.	IS 8563: 1977	Specification for Half Round Mild Steel Wire for The Manufacture of Split Pins.	72179011 72299014 72299051 72299090			With immediate effect.
118.	IS 8564: 1977	Specification for Steel Wire for Nipples for Spokes.	72171010 72171020 72171030 72179019 72179091	72179099 72292000 72299031 72299032 72299033	72299034 72299040 72299059 72299090	With immediate effect.
119.	IS 8565: 1977	Specification for Heald Wire.	72171010 72171020 72171030 72179019 72179091 72179099	72292000 72299031 72299032 72299033 72299034	72299040 72299051 72299052 72299059 72299090	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
120.	IS 8566: 1977	Specification for Steel Wire for Reeds.	72171010 72171020 72171030 72179019 72179091	72179099 72292000 72299031 72299032 72299033	72299034 72299040 72299059 72299090	With immediate effect.
121.	IS 8917: 1978	Specification for Steel Plates for Galvanizing Pots.	72082510 72082610 72082620 72082710 72082720 72083610 72084020 72085110 72085120 72085210 72085220 72083620 72083710 72083720 72083810 72083820	72083910 72083920 72084010 72085310 72085320 72085410 72085420 72089000 72091510 72091610 72091790 72091710 72091810 72091890 72092510 72092590	72092610 72092690 72092710 72092790 72092810 72099000 72111300 72111420 72111490 72111920 72111990 72112320 72112390 72112920 72112990 72119090	With immediate effect.
122.	IS 9442: 1980	Specification for Hot -Rolled Steel Plates, Sheets and Strips for Manufacture of Agricultural Tillage Discs.	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890 72083910 72083920 72083930	72084040 72084090 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72085410 72085420 72085430 72085440 72085490 72089000 72111300 72111420 72111440 72111450 72111490 72191111 72191112 72191190 72192111 72192112	72192142 72192190 72192211 72192212 72192219 72192291 72192292 72192299 72192411 72192412 72192413 72192419 72192421 72192422 72192423 72192429 72193111 72193112 72193121 72193122 72193190 72193210 72193220 72193290 72193310 72193320 72193390 72193410 72193420 72193490 72193510 72193520 72193590	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72083940 72083990 72084010 72084020 72804030	72192121 72192122 72192131 72192132 72192141	72199011 72129012 72129013 72129090	
123.	IS 9485: 1980	Specification For Cold-Reduced and Hot-Rolled Carbon Steel Sheet for Porcelain Enamelling.	72082530 72082590 72082630 72082690 72082730 72082790 72083630 72083690 72083730 72083790 72083830 72083890 72083930 72083990 72084030 72084090 72085130	72085190 72085230 72085290 72085330 72099000 72085390 72085430 72085490 72089000 72091520 72091590 72091620 72091690 72091720 72091790 72091820 72091890	72092520 72092590 72092620 72092690 72092720 72092790 72092820 72092890 72111440 72111490 72111940 72111990 72112340 72112390 72112940 72112990 72119090	With immediate effect.
124.	IS 10794: 1984	Specification for Mild Steel Wire for Cotter Pins.	72082510 72082520 72082530 72082540 72082590 72082610 72082620 72082630 72082640 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730 72083740 72083790 72083810 72083820 72083830 72083840 72083890 72083910 72083920	72084090 72085110 72085120 72085130 72085140 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72085410 72085420 72085430 72085440 72085490 72089000 72111300 72111420 72111440 72111450 72111490 72191111 72191112 72191190 72192111 72192112	72192211 72192212 72192219 72192291 72192292 72192299 72192310 72192320 72192390 72192411 72192412 72192413 72192419 72192421 72192422 72192423 72192429 72192490 72193111 72193112 72193121 72193122 72193190 72193210 72193220 72193290 72193310 72193320 72193390 72193410 72193420 72193490	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72083930 72083940 72083990 72084010 72084020 72084030 72084040	72192121 72192122 72192131 72192132 72192141 72192142 72192190	72193510 72193520 72193590 72199011 72199012 72199013 72199090	
125.	IS 12262: 1988	Specification for Trapezoidal Steel Wire for Springs Washers.	72299013 72299052 72179019	72179099 72299040	72299059 72299090	With immediate effect.
126.	IS 15911: 2010	Structural Steel (Ordinary Quality)-Specification.	72082510 72082520 72082690 72082710 72082720 72082730 72082740 72082790 72083610 72083910 72083920 72083930 72083940 72083990 72085110 72085120 72085130	72085140 72111420 72111430 72111440 72111450 72111460 72111490 72119012 72119090 72139190 72083620 72083630 72083640 72083690 72083710 72083720 72083730	72083820 72083830 72083840 72083890 72085190 72085210 72085220 72085230 72085240 72085290 72085310 72085320 72085330 72085340 72085390 72089000 72111300	With immediate effect.
127.	IS 4431: 1978	Specification for Carbon and Carbon-Manganese Free-Cutting Steels.	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920 72071990 72072010 72072090 72131010 72131090 72141090	72142090 72149110 72149190 72149990 72282000 72288090 72151000 72155010 72155090 72159090 72241000 72249040	72249091 72249099 72283029 72284000 72285090 72286093 72286099 72287011 72287012 72287021 72287022	With immediate effect.
128.	IS 4432: 1988	Specification for Case Hardening Steels.	72072020 72241000 72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071990	72072010 72072090 72141090 72149190 72149990 72155090 72159090 72249040	72249091 72249099 72282000 72283029 72284000 72285090 72286099	With immediate effect.
129.	IS 5518: 1996	Steels for Die Blocks for Drop Forging Specification.	72249010 72249020 72249030 72249040 72281090	72241000 72283019 72283029 72283011 72283024	72286011 72286012 72286094 72286099	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
130.	IS 8748: 1978	Specification for Forged/Rolled CTC Segments.	72189100 72189990 72210011 72210012 72210019 72210090 72221111 72221112 72221119 72221191 72221192	72221199 72221911 72221912 72221919 72221991 72221992 72221999 72222011 72222012 72222019	72222091 72222092 72222099 72223011 72223012 72223019 72223091 72223092 72223099 72189910	With immediate effect.
131.	IS 12145: 1987	Specification for Quenched and Tempered Alloy Steel Forgings for Pressure Vessels.	72249040 72249099 72259900	72254011 72254012	72253090 72254019	With immediate effect.
132.	IS 13387: 1992	Tool Steel Forgings for Metal Forming – Specification.	72249010 72249020 72249030 72249040 72241000	72283011 72283019 72283024 72283029	72286011 72286012 72286094 72286099	With immediate effect.
133.	IS 14698: 1999	Carbon and Low Alloy Billets, Blooms, Slabs and Bars for Manufacture of Shell Bodies and Proof Shots Used in Defence Services - Specification.	72071120 72071130 72071190 72071210 72071220 72071230 72071290 72071920	72071990 72072010 72072030 72072090 72141090 72149110 72149190	72149990 72155090 72155010 72159090 72241000 72249091 72249099	With immediate effect.
134.	IS/ISO 11951: 2016	Cold - Reduced Tinmill Products – Blackplate.	72101110 72101190 72101210 72101290 72121010 72121090 72091520 72091590 72091530 72091620	72091690 72091720 72091730 72091790 72091820 72091830 72091890 72092520 72092530 72092590	72092620 72092630 72092690 72092720 72092730 72092790 72092820 72092830 72092890	With immediate effect.
135.	IS 3930: 1994	Flame and Induction Hardening Steels – Specification.	72249091 72249090 72281010 72281090 72283011 72283019	72283024 72284000 72283021 72283029 72283023 72285090	72286011 72286012 72286091 72286093 72286094 72286099	With immediate effect.
136.	IS 5478: 1969	Specification for Thermostat Metal Sheet and Strip.	72125090 72126000	72121090 72122090	72123090 72125090	With immediate effect.
137.	IS 13352: 1992	Stock for Forgings produced from Continuously Cast Blooms, Billets and Slabs – Specification.	72071120 72071190 72071220 72071290 72071910 72071920 72071990	72241000 72249040 72249091 72249099 72271000 72272000 72279010	72283022 72283023 72283024 72283029 72284000 72285010 72285090	With immediate effect.

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
			72072010 72072090 72141090 72142090 72149110 72149190 72149990 72155010 72155090 72159090	72279020 72279030 72279040 72279050 72279060 72279090 72281010 72281090 72282000 72283021	72286011 72286012 72286091 72286092 72286093 72286094 72286099 72288010 72288020 72288090	
138.	IS 16644: 2018	Stress-Relieved, Low Relaxation Steel Wire for Pre-stressed Concrete — Specification.	72171010 72171020 72171030 72172010 72172020	72172030 72173010 72173020 72173030 72179011	72179012 72179013 72179019 72179091 72179099	With immediate effect.
139.	IS 17404: 2020	Electrogalvanized Hot Rolled and Cold Reduced Carbon Steel Sheets and Strips — Specification.	72103010 72103090	72122010 72122090	72259100 72259900	With immediate effect.
140.	IS 16732: 2019	Galvanized Structural Steel – Specification.	72082510 72082520 72082540 72082590 72082610 72082620 72082640 72082690 72082710 72082720 72082740 72082790 72083610 72083620 72083640 72083690 72169910	72083710 72083720 72083740 72083790 72083810 72083820 72083840 72083890 72083910 72083920 72083940 72083990 72084010 72084020 72084040 72084090 72169990	72085110 72085120 72085140 72085190 72085210 72085220 72085240 72085290 72085310 72085320 72085340 72085390 72085410 72085420 72085440 72085490 72089000	6 months from the date of notification.
141.	IS 17111: 2019 (ISO 683- 17: 2014)	Heat-Treated Steels Alloy and Free-Cutting Steels — Ball and Roller Bearing Steels.	72249030 72249091 72249099 72279030 72279050 72279060 72279090 72283019 72283021	72283023 72283029 72284000 72285090 72286012 72286091 72286093 72286099	72299059 72299090 73042990 73043119 73044100 73044900 73045110 73262010	3 months from the date of notification.
142.	IS 12594: 1988	Hot-dip Zinc Coating on Structural Steel Bars for Concrete Reinforcement – Specification.	72159010 72159090			6 months from the date of notification.
143.	IS 1170: 1992	Ferrochromium – Specification.	72024100 72024900	72025000	72029990	6 months from the date of notification.
144.	IS 1171: 2011	Ferromanganese – Specification.	72021100	72021900	72029990	6 months from the date of

Sl. No.	Indian Standards		ITC(HS) Codes			Date of Implementation
	IS Number	IS Title				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
						notification.
145.	IS 1470: 2013	Silicomanganese – Specification.	72023000	72029990		6 months from the date of notification.

SCHEDULE 2

Sl. No.	Goods and articles	Essential requirements/ Clause	ITC (HS) Code	Date of implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Stampings or laminations or cores of transformers (with or without winding).	Made from Bureau of Indian Standards (BIS) standard marked Grain Oriented Electrical Steel Sheet and Strip conforming to IS 3024:2015 or Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip - conforming to IS 648:2006 or Magnetic materials – specification for individual material – Fe based amorphous strip delivered in the semi-processed state conforming to IS 16585: 2016.	85049010 85049090	31 st December, 2020.
2.	Stainless steel pipes and tubes.	Sub-paragraph (4) of paragraph 3	73041110 73041120 73041190 73042200 73042400 73044100 73044900 73051129 73051229 73053190 73053990 73059029 73059099 73061100 73062100 73064000 73066100 73066900 73069090	With immediate effect.
3.	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, (other than compressed or liquefied gas), of tin plate or tin free steel of capacity 50 litres or more but not exceeding 300 litres.	Sub-paragraph (5) of paragraph 3	73101010 73101090 73102910 73102990	With immediate effect.
4	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, (other than compressed or liquefied gas), of tin plate or tin free cans of capacity less than 50 litres which are to be closed by soldering or crimping.	Sub-paragraph (5) of paragraph 3	73102110 73102190 73102910 73102990	With immediate effect.

5	Stoppers, caps and lids (including crown corks, screw caps and pouring stoppers), capsules for bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal. Pilfer proof caps for packaging, all sorts, with or without washers or other fittings, of cork, rubber, polyethylene or any other material. Other seals of tin plate and tin free steel.	Sub-paragraph (5) of paragraph 3	83091000 83099010 83099030 83099090	With immediate effect.
6	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols of tin plate and tin free steel.	Sub-paragraph (5) of paragraph 3	83100090	With immediate effect.
7	Primary cells and primary batteries parts.	Sub-paragraph (5) of paragraph 3	85069000	With immediate effect.

Note : For the purposes of this Order, "ITC (HS) Codes" mean the Indian Trades Classification (Harmonized System) codes specified in column (4) of Schedule 1 and Schedule 2 respectively. The codes are generic and indicative in nature and the applicability of this Order shall be limited to steel and steel products covered in Indian Standards.

[F. No. S-20011/10/2022-TECH]

RUCHIKA CHAUDHARY GOVIL, Addl. Secy.